


# छत्तीसगढ़

## कृषक सहयोगी पुस्तिका कृषि वातावरणीय विभाग—VII & VIII (केन्द्रीय एवं पूर्वीय पठार और पहाड़ीय क्षेत्र)



भारत सरकार  
कृषि मंत्रालय  
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)  
केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान  
ट्रैक्टर नगर, बुदनी 466 445 (म.प्र.)

वेबसाइट: [WWW.cfmtti.dacnet.nic.in](http://WWW.cfmtti.dacnet.nic.in)

ई-मेल: [fmti-mp@nic.in](mailto:fmti-mp@nic.in)

Created with

**nitroPDF professional**  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

## सूची

क्र. सं.	शीर्षक	पेज क्रमांक
1	प्रस्तावना	3–4
	साधारण जानकारी	3
	कृषि और उप—कृषि जलवायु मंडल	3
	फसलीय प्रतिदर्श	3
	यांत्रिक कृषि के अवसर	4
2	विभिन्न कापिंग पेटन के लिए सुझाये गये कृषि उपकरण एवं मशीनरी	5–8
	(अ) धान—गेहूँ	5
	(ब) धान — चना	6
	(स) मक्का — चना	7
	(द) सोयाबीन — गेहूँ	8
3	भूमि विकास हेतु यंत्र	9–12
3.1	टेरेस ब्लेड	10
3.2	सब स्वॉइलर	11
3.3	लेजर गाईडेड लैण्ड लेवलर	12
4	जुताई यंत्र	13–24
4.1	एम. बी. प्लाऊ	14
4.2	पलटी (रिवर्सिबल) एम.बी. प्लाऊ	15
4.3	डिस्क प्लाऊ	16
4.4	माउंटेड टाइन किस्म का कल्टीवेटर	17
4.5	माउंटेड व ट्रेलेड डिस्क हैरो	18
4.6	डकफुट कल्टीवेटर (बतख पैरनुमा कल्टीवेटर)	19
4.7	रोटावेटर	20
4.8	कल्टीपेकर	21
4.9	पोस्ट होल डिगर (गड़डा खुदाईयंत्र)	22
4.10	डिस्क टाईप पड़लर	23
4.11	केज व्हील	24
5	बीज व उर्वरक बुवाई यंत्र	25–33
5.1	बीज व उर्वरक बुवाई यंत्र	26
5.2	जिरो टिल ड्रिल (बिना जुताई यंत्र)	27
5.3	रेज्ड बेड प्लान्टर	28
5.4	इन्कलाइन्ड प्लेट प्लान्टर	29
5.5	न्यूमेटिक प्लान्टर	30
5.6	स्ट्रीप टिल सीड ड्रिल (कतारी बीज रोपण यंत्र)	31
5.7	आठ पैकितयों वाला चटाइनुमा धान रोपाई यंत्र	32
5.8	गन्ना काटने व बोने वाला यंत्र	33
5.9	सब्जी फसल रोपण यंत्र	34
6	इन्टर कल्चर उपकरण	35–37
6.1	कोनो वीडर निदाई (मानवचलित)	36
6.2	स्वचलित पावर वीडर	37
7	पौध संरक्षण यंत्र	38–41

Created with

	7.1	नेपशेक स्प्रेयर	39
	7.2	नेपशेक पॉवर स्प्रेयर	40
	7.3	ट्रैक्टर चालित बूम स्प्रेयर	41
	7.4	ट्रैक्टर चालित एयरों ब्लास्ट स्प्रेयर	42
8		फसल कटाई मशीन	43–51
	8.1	स्वतः चलित वर्टिकल कन्वेयर रीपर	44
	8.2	ट्रैक्टर आधारित वर्टिकल कन्वेयर रीपर	45
	8.3	स्वचलित रीपर	46
	8.4	स्वचलित कम्बाइन हार्वेस्टर	47
	8.5	स्वचलित रीपर बाईण्डर	48
	8.6	स्ट्रा बेलर	49
	8.7	स्ट्रा रीपर / स्ट्रा कम्बाइन	50
	8.8	श्रॅब मास्टर	51
9		गहाई के यंत्र	52–54
	9.1	बहु फसलीय गहाई यंत्र	53
	9.2	अक्षीय प्रवाह धान गहाई यंत्र	54
10		मशीनरी निर्माताओं की पता सूची	55–56
11		कृषि मशीनरीकरण के विस्तार हेतु भारत सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम	57–58
12		कृषि मशीनरीकरण पर स्वीकृत अधिकतम वित्तीय सहायता का स्वरूप	59–60

Created with

## प्रस्तावना

### साधारण जानकारी:-

छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 137.36 लाख हैक्टेयर है, इसमें 34.80 प्रतिशत अर्थात् 47.79 लाख हैक्टेयर में फसलों की बुवाई होती है। 6.87 लाख हैक्टेयर (5 प्रतिशत) भूमि खेती योग्य नहीं है और 63.03 लाख हैक्टेयर (45.89 प्रतिशत) भूमि वन क्षेत्र में आता है।

छत्तीसगढ़ राज्य पूर्व में दक्षिणी झारखण्ड व उडिसा, पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी झारखण्ड तथा दक्षिण में आन्ध्र प्रदेश से घिरा हुआ है।

#### 1. कृषि और उप-कृषि जलवायु मंडल :-

80 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या कृषि आधारित है। इनकी मुख्य फसल है धान, गेहूँ, मक्का, मूँगफली, दाल और तिलहन है। राज्य को उसके स्थान और जलवायु के आधार पर तीन कृषि जलवायु मंडल में विभाजित किया गया है। बस्तर पठार के अन्दर बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जिले तथा कुछ भाग कांकेर (चरमा, नरहरपुर और कांकेर ब्लाक को छोड़कर) आते हैं। राज्य का उत्तर भाग “उत्तर पर्वतीय क्षेत्र” में आता है, जिसमें सरगुजा, कोरिया और जसपुर जिले हैं। “छत्तीसगढ़ समतलीय क्षेत्र” में बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर-चौपा, रायगढ़, राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग, महासमुन्ध, धमतारी, कोरबा तथा कांकेर के भाग आते हैं।

#### कृषि जलवायु क्षेत्र

- बस्तर पठारीय क्षेत्र
- छत्तीसगढ़ समतलीय क्षेत्र
- उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र

साधारणतः तीनों क्षेत्रों की जलवायु भिन्न है। उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र में (उत्तरीय पठारीय क्षेत्र) के कुछ भाग समशीतोष्ण जलवायु से मिलते जुलते हैं। जबकि दक्षिणीय भाग के बस्तर क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। कुल बुवाई क्षेत्र लगभग 22 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई युक्त है।

#### 2. फसलीय प्रतिदर्श :-

राज्य की मुख्य फसल धान और गेहूँ है, जिसका उत्पादन 1455 तथा 1024 के कि.ग्रा. /हैक्टेयर है जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। राज्य में अनाजों का पैदावार स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है, फिर भी राज्य की कुल पैदावार राज्य के जरूरत से ज्यादा है। राज्य के कुछ हिस्सों की मुख्य फसले जैसे कि दाल, मक्का तथा सोयाबीन, राई जौ सरसों भी पैदा की जाती है। अनाज और दालों की भी पैदावार राज्य की जरूरतों से ज्यादा है। राज्य का 0.82 लाख क्षेत्र द्वि-फसलीय है।

#### 3. मृदा (मिट्टी)

बस्तर पठारीय क्षेत्र, छत्तीसगढ़ समतलीय क्षेत्र, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी हल्की से मध्य हल्की (लाल, पीली) तथा मध्यम भारी से अधिक भारी (भूरी, काली) होती है।

Created with

## यांत्रिक कृषि के अवसर

फार्म शक्ति की उपलब्धता 0.60 कि.वा./हैक्टेयर है। जबकि राष्ट्रीय औसत 1.53 कि. वा. / हैक्टेयर है। राज्य में धान की खेती में प्रयोग होने वाले यंत्र जैसे कि पशु चालित पडलर हस्तचलित कोनोवीडर, हस्तचलित धान प्ररोपक, हस्तचलित प्रीजर्मानेटेड धान सीडर, स्वचलित धान प्ररोपक तथा बहुफसलीय गहाई यंत्र में यांत्रिकी के पुरजोर अवसर है। छत्तीसगढ़ की दाल और तेल पैदा करने वाले क्षेत्र में पशुचलित बीज कम उर्वरक ड्रिल और इनकलाईन्ड प्लेट रोपक के आने के बहुत अच्छे अवसर हैं। मध्यम और बड़े किसानों को रोटावेटर, ट्रैक्टर चलित इनकलाईन्ड प्लेट रोपक और ट्रैक्टरचलित वर्टीकल कन्वेयर रीपर का प्रयोग करना चाहिए जिसकी लागत थोड़ी ज्यादा है। मुँगफली की खेती के लिए पशु चलित मुँगफली डिगर, ट्रैक्टर चलित मुँगफली डिगर—सेकर और TNAU शक्ति चलित मुँगफली गहाई यंत्र जो कि बहुत अच्छी है। सूर्यमुखी की खेती के लिए फुले सूर्यमुखी की गहाई यंत्र और PAU सूर्यमुखी गहाई यंत्र अच्छे हैं। कस्टम हायरिंग के क्षेत्र में बड़े किसान एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, जिसमें वो ज्यादा ताकतवर यंत्रों जैसे रोटावेटर, बीज कम उर्वरक रोपण, ट्रैक्टर चलित रोपक, स्वचलित धान प्ररोपक, स्वचलित/ट्रैक्टर चलित वर्टीकल कन्वेयर रीपर, पावर स्प्रेयर तथा बहुफसलीय गहाई यंत्र का उपयोग करके छोटे किसानों कि मदद कर सकते हैं।

Created with

**2. विभिन्न कापिंग पेटन के लिए सुझाये गये कृषि उपकरण एवं मशीनरी**

**(अ) धान—गेहूँ**

क्र.	यंत्र के प्रकार	लगभग मूल्य रु. (लाख)	यंत्रों का विवरण (पृष्ठ संख्या)
1	<b>भूमि विकास हेतु यंत्र</b>		9
	लेजर गाईडेड लेण्ड लेवलर	2.75	12
2	<b>जुताई यंत्र</b>		13
	एम. बी. प्लाऊ	0.27	14
	पलटी (रिवर्सिबल) एम. बी. प्लाऊ	0.60	15
	डिस्क प्लाऊ	0.32	16
	मांउडेड व ट्रेल्ड डिस्क हैरो	0.30	18
	डकफुट कल्टीवेटर (बतख पैरनुमा)	0.20	19
	रोटावेटर	0.70	20
	कल्टीपेकर	0.60	21
	डिस्क टाईप पडलर	0.20	23
	केज व्हील	0.15	24
3	<b>बीज एवं उर्वरक बुवाई यंत्र</b>		25
	बीज व उर्वरक बुवाई यंत्र	0.40	26
	जिरो टिल ड्रिल	0.30	27
	स्ट्रिप टिल सीड ड्रिल	0.70	31
	आठ पक्कियो वाला धान रोपाई यंत्र	2.00	32
4	<b>निदाई गुडाई यंत्र</b>		35
	कोनो वीडर (मानव चलित)	0.02	36
	सेल्फ प्रोपेल्ड पावर वीडर	0.80	37
5	<b>फसल सुरक्षा यंत्र</b>		38
	नेपसेक स्प्रेयर (छिड़काव यंत्र) हस्तचलित	0.025	39
	नेपसेक पावर स्प्रेयर इंजन चलित	0.12	40
	ट्रैक्टर चालित बूम स्प्रेयर	0.50	41
	एयरो ब्लास्ट स्प्रेयर	0.85	42
6	<b>फसल कटाई यंत्र</b>		43
	ट्रैक्टर आधारित वर्टीकल कन्वेयर रीपर	0.50	44
	स्वचालित कम्बाईन हार्वेस्टर	14.0	47
	स्वचालित रीपर बाईण्डर	2.70	48
	स्ट्रॉ कम्बाईन	1.00	49
7	<b>गहाई यंत्र</b>		52
	बहुफलीय गहाई यंत्र	1.00	53
	अक्षीय प्रवाह धान गहाई यंत्र	0.70	54

Created with



**nitroPDF**  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

## ब. धान – चना

क्र.	यंत्र के प्रकार	लगभग मूल्य रु. (लाख)	यंत्रों का विवरण (पृष्ठ संख्या)
1	<b>भूमि विकास हेतु यंत्र</b>		9
	लेजर गाइडेड लेण्ड लेवलर	2.75	12
2	<b>जुताई यंत्र</b>		13
	एम. बी. प्लाऊ	0.27	14
	पलटी (रिवर्सिबल) एम. बी. प्लाऊ	0.60	15
	डिस्क प्लाऊ	0.32	16
	माउडेड व ट्रेल्ड डिस्क हैरो	0.30	17
	डकफुट कल्टीवेटर (बतख पैरनुमा)	0.20	19
	रोटावेटर	0.70	20
	कल्टीपेकर	0.60	21
	डिस्क टाईप पडलर	0.20	23
	केज व्हील	0.15	24
3	<b>बीज एवं उर्वरक बुवाई यंत्र</b>		25
	बीज व उर्वरक बुवाई यंत्र	0.40	26
	जीरो टिल ड्रिल	0.30	29
	स्ट्रिप टिल सीड ड्रिल	0.70	31
	आठ पवित्रियो वाला धान रोपाई यंत्र	2.00	32
4	<b>निदाई गुडाई यंत्र</b>		35
	कोनो वीडर (मानव चलित)	0.02	36
	सेल्फ प्रोपेल्ड पावर वीडर	0.80	37
5	<b>फसल सुरक्षा यंत्र</b>		38
	नेपशेक स्प्रेयर (छिड़काव यंत्र) हस्तचलित	0.025	39
	नेपशेक पावर स्प्रेयर इंजन चलित	0.12	40
	ट्रैक्टर चलित बूम स्प्रेयर	0.50	41
	एयरो ब्लास्ट स्प्रेयर	0.85	42
6	<b>फसल कटाई यंत्र</b>		43
	ट्रैक्टर आधारित वर्टीकल कच्चेयर रीपर	0.50	44
	स्वचलित कम्बाईन हार्वेस्टर	14.0	47
	स्वचलित रीपर बाईण्डर	1.00	48
	स्ट्रॉ कम्बाईन	1.00	50
7	<b>गहाई यंत्र</b>		52
	बहुफलीय गहाई यंत्र	1.00	53
	अक्षीय प्रवाह धान गहाई यंत्र	0.70	54

Created with



**nitroPDF**  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

## स. मक्का – चना

क्र.	यंत्र के प्रकार	मूल्य लाखों में	यंत्रों का विवरण (पृष्ठ संख्या)
1	<b>भूमि विकास हेतु यंत्र</b>		9
	लेजर गाइडेड लेण्ड लेवलर	2.75	12
2	<b>जुताई यंत्र</b>		13
	एम. बी. प्लाऊ	0.27	14
	पलटी (रिवर्सिबल) एम. बी. प्लाऊ	0.60	15
	डिस्क प्लाऊ	0.32	16
	माउडेड व ट्रेल्ड डिस्क हैरो	0.30	18
	डकफुट कल्टीवेटर (बतख पैरनुमा)	0.20	19
	रोटावेटर	0.70	20
	कल्टीपेकर	0.60	21
3	<b>बीज एवं उर्वरक बुवाई यंत्र</b>		25
	बीज व उर्वरक बुवाई यंत्र	0.40	26
	रेज्ड बेड प्लान्टर (रोपक)	0.40	28
	न्यूमेटिक प्लान्टर	1.00	30
	इनकलाईन्ड प्लेट प्लान्टर (रोपक)	0.70	29
4	<b>निदाई गुडाई यंत्र</b>		35
	सेल्फ प्रोपेल्ड पावर वीडर	0.80	37
5	<b>फसल सुरक्षा यंत्र</b>		38
	नेपशेक स्प्रेयर (छिड़काव यंत्र) हस्तचलित	0.025	39
	नेपशेक पावर स्प्रेयर इंजन चलित	0.12	40
6	<b>फसल कटाई यंत्र</b>		43
	ट्रैक्टर आधारित वर्टीकल कन्वेयर रीपर	0.50	45
	स्वचलित कम्बाईन हार्वेस्टर	14.0	47
7	<b>गहाई यंत्र</b>		52
	बहुफलीय गहाई यंत्र	1.00	53

Created with



**nitro PDF®**  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

## द. सोयाबीन – गेहूँ

क्रं.	यंत्र के प्रकार	मूल्य लाखों में	यंत्रों का विवरण (पृष्ठ संख्या)
1	भूमि विकास हेतु यंत्र		9
	लेजर गाईडेड लेण्ड लेवलर	2.75	12
2	जुताई यंत्र		13
	एम. बी. प्लाऊ	0.27	14
	पलटी (रिवर्सिबल) एम. बी. प्लाऊ	0.60	15
	डिस्क प्लाऊ	0.32	16
	माउडेड व ट्रेल्ड डिस्क हैरो	0.30	18
	डकफुट कल्टीवेटर (बतख पैरनुमा)	0.20	19
	रोटावेटर	0.70	20
	कल्टीपैकर	0.60	21
3	बीज एवं उर्वरक बुवाई यंत्र		25
	बीज व उर्वरक बुवाई यंत्र	0.40	26
	बिना जुताई बीज रोपण यंत्र	0.30	27
	रेजड बेड प्लान्टर	0.40	28
	स्ट्रिप टिल सीड ड्रिल	0.70	31
4	निदाई गुडाई यंत्र		35
	सेल्फ प्रोपेल्ड पावर वीडर	0.80	37
5	फसल सुरक्षा यंत्र		38
	नेपसेक स्प्रेयर (छिड़काव यंत्र) हस्तचलित	0.025	39
	नेपसेक पावर स्प्रेयर इंजन चलित	0.12	40
	ट्रैक्टर चलित बूम स्प्रेयर	0.50	41
	एयरो ब्लास्ट स्प्रेयर	0.85	42
6	फसल कटाई यंत्र		43
	स्वचलित वर्टीकल कन्वेयर रीपर	1.00	44
	ट्रैक्टर आधारित वर्टीकल कन्वेयर रीपर	0.50	45
	स्वचलित कम्बाईन हार्वेस्टर	14.0	47
	स्ट्रॉ कम्बाईन	1.00	50
7	गहाई यंत्र		52
	बहुफसलीय गहाई यंत्र	1.00	53

Created with

3. भूमि विकास हेतु यंत्र

- 3.1 टेरेस ब्लेड
- 3.2 सब स्वाइलर
- 3.3 लेजर गाईड्ड लेण्ड लेवलर

Created with

### 3.1 टेरेस ब्लेड



#### विशेषताएः—

टेरेस ब्लेड ट्रैक्टर के थ्री पार्वन्ट लिंकेज सिस्टम से जोड़ कर हाइड्रोलिक से नियन्त्रित किया जाता है यह मुड़ी हुई स्टील बॉडी के साथ बदलने योग्य ब्लेड से बना होता है तथा इसके दोनों तरफ पंखनुमा साइड होती है। जिसे एक्सटेशन भी कहते हैं तथा किसी भी कोण पर झुकाते / मोड़ने हेतु इंडेक्स व्यवस्था रहती है।

#### विनिर्देश :-

ब्लेड की लम्बाई (मि.मी.)	: 1950—2458
ऊँचाई (मि.मी.)	: 978
ब्लेड ऑफसेट (मि.मी.)	: 305
फारवर्ड एंगुलर समायोजन (डिग्री)	: 0°, 15°, 30° और 45° दायें से बाये
उल्टी दिशा से एंगुलर समायोजन (डिग्री)	: 0°, 15°, 30° और 45° दायें से बाये
वजन (किंवद्दन)	: 210—260
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	: 35—50 / 26.25—37.5, ट्रैक्टर

#### उपयोग :-

टेरेस ब्लेड का प्रयोग खेतों के ग्रेडिंग, समतल करना तथा सिंचाई हेतु गड्ढों की भराई कर समतल करने में होता है।

लागत :— रु. 30,000 — 40,000/-

Created with

### 3.2 सब स्वाइलर



#### विशेषताएः—

इसमें बीम उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है, इस बीम की सहायक रूप में ऊपरी व नीचली कठोरता के लिए पलेंज लगी होती है। बीम के निचले भाग में खाली स्टील अडोप्टर बेल्ड किया होता है ताकि शेयर बेस उसमें समाहित हो सके। शेयर बेस वर्गाकार सेक्शंन में होता है। शेयर प्लेट उच्च कार्बन स्टील का बना होता है और उसकी धुरी में सेट बोर्ड हेतु दोनों ओर छेद होते हैं ताकि अडोप्टर आधार को मजबूती मिल सकें। सब स्वाइलर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जिस जमीन पर कई वर्षों से खेती न की गई हो। इसका प्रयोग कठोर सतह और ढेलो को तोड़ने में किया जाता है। यह 60 सेमी की गहराई तक जा सकता है।

#### विनिर्देश :—

लम्बाई (मि.मी.)	:	600
चौड़ाई (मि.मी.)	:	490
ऊचाई (मि.मी.)	:	1325
अधिकतम गहराई कार्यशीलता (मि.मी.)	:	535—600
वजन (कि0ग्रा0)	:	62—125
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	55 / 41.25 और उच्च ट्रैक्टर

#### उपयोग :—

इसका उपयोग भूमि की सख्त सतह को तोड़ने में किया जाता है, जिससे भूमि में पानी के रिसाव द्वारा निकासी का सुधार हो सके। इसे जमीन में छोटी — छोटी सुरंगनुमा नाली बनाने हेतु, इसमें मोल बॉल को भी लगाया जा सकता है जो पानी के निकास में सहयोग करता है।

लागत :— रु. 20,000—60,000 /—

### 3.3 लेजर गार्डेन लेण्ड लेवलर



#### विशेषताएः—

लेजर लेण्ड लेवलर लेजर ट्रॉन्समीटर, लेजर रिसीवर, विद्युत नियन्त्रित पॅनल, जुड़वा सोलेन्याइड हाईड्रोलिक नियन्त्रित बाल्व, दो पहिये और समतल करने वाले बकेट से मिलकर बना होता है। लेजर ट्रॉन्समीटर लेजर किरणों को भेजता है जो कि समतल बकेट पर लगे लेजर रिसीवर द्वारा रोका जाता है। रिसीवर से प्राप्त होने वाले सिग्नल को ट्रैक्टर पर लगी कन्ट्रोल पैनल ग्रहण कर हाईड्रोलिक कन्ट्रोल बाल्व को खोलती एवं बंद करती है। जिससे बकेट को आवश्यकतानुसार ऊपर उठाया व गिराया जा सकता है। कुछ लेजर ट्रॉन्समीटर में अत्यधिक ढलानों में 0.01% से 15% तक को श्रेणीकृत ढाल बनाने की क्षमता होती है तथा ढाल युक्त खेतों में दो तरफा नियन्त्रित रखता है। समतल करने वाली बकेट ट्रैक्टर के थ्री पाइंट लिंकेज पर अधारित रहती है या ट्रैक्टर के ड्राबार द्वारा खीची जाती है। बकेट का आकार व क्षमता ट्रैक्टर की शक्ति व फील्ड की स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकती है।

#### विनिर्देश :—

लेजर स्त्रोत	: 5 एम डब्लू 635 एन एम
प्रचालन डायमीटर	: 800
ग्रेड रेन्ज	: -10 से + ड्युल एक्सेस
ग्रेड यथार्थता (ऐक्युरेसी)	: 0.015, 3 मिमी @ 30 मीटर
रिमोट कंट्रोल टाईप	: पूर्ण दो तरफा सम्प्रेषण
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	: 60 / 45, ट्रैक्टर

#### उपयोग :—

इसका उपयोग भूमि के किसी एक तरफ या दो तरफ सूक्ष्मतम समतल करने में किया जाता है।

लागत :— अनुमानत: 3,50,000/-

## 4 जुताई यंत्र

- 4.1 एम. बी. प्लाऊ
- 4.2 पलटी (रिवर्सिबल) एम.बी. प्लाऊ
- 4.3 डिस्क प्लाऊ
- 4.4 माउंटेड टाइन किस्म का कल्टीवेटर
- 4.5 माउंटेड व ट्रेलड डिस्क हैरो
- 4.6 डकफुट कल्टीवेटर (बतख पैरनुमा कल्टीवेटर)
- 4.7 रोटावेटर
- 4.8 कल्टीपेकर
- 4.9 पोस्ट होल डिगर (गड्ढा खुदाईयंत्र)
- 4.10 डिस्क टाईप पड़लर
- 4.11 केज व्हील

Created with

#### 4.1 एम. बी. प्लाऊ (मोल्ड बोर्ड प्लाऊ)



#### विशेषताएः :-

यह ट्रैक्टर चलित यंत्र है इसमें शेयर पाईट, फल (शेयर), लेंडसाइड, फाग, शैन्क, फ्रेम और खिचने वाली पद्धति (हिच सिस्टम) से मिलकर बना होता है। फाल पाईट (शेयर पाईट) छड़ रूप में तथा उच्च कार्बन स्टील या निम्न अलॉय स्टील के बने होते हैं। दोनों ही आवश्यक कठोरपन (लगभग 45ARC) के लिए सख्त उपयुक्त होते हैं इसे ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली से नियन्त्रित कर चलाया जाता है। एम.बी. प्लाऊ प्राथमिक भू-जुताई का यंत्र है।

#### विनिर्देश :-

फल (बाटम) की संख्या	: 2-4
लम्बाई (मि.मी.)	: 1778-2392
चौड़ाई (मि.मी.)	: 889-1194
ऊचाई (मि.मी.)	: 1092-1094
वजन (किंवद्दन)	: 253-386
क्षमता (हैक्टेयर / दिन)	: 1.5-2.0
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	: 30-50 / 22.5-35 ट्रैक्टर

#### उपयोग :-

इसका उपयोग प्राथमिक भू-जुताई में किया जाता है। यह घास रुपी कचरा को पुर्णतः नष्ट करता है। इसका उपयोग ही खाद वाली फसलों को पलटने व भुमि में सडाने में किया जाता है। इससे मिट्टी में खाद की मात्रा बढ़ती है। इसका इस्तेमाल जमीन में चूना अथवा गोबर की खाद व फार्म की सड़ी गली खाद को पलटने में भी किया जा सकता है।

लागत :- रु. 25,000-40,000/-

## 4.2 पलटी (रिवर्सिबल) एम.बी. प्लाऊ



### विशेषताएः—

यह दो आधार (फल) वाला खास उलट पलट एम.बी. प्लाऊ है, जिसे ट्रैक्टर से सीधा जोड़ा जाता है खेत को तैयार करने के लिए यह हाइड्रोलिक अथवा मैकेनिक आधारित चलित यंत्र है यह सूखी सख्त तथा प्रथम जुताई हेतु अत्यन्त उपयोगी यंत्र है मोल्ड बोर्ड कूँड बनाते एवं मिट्टी पलटते हैं। इसके हल का स्टील आधार तथा सलाख बिन्दू से कठिन परिस्थितियों में भी पूर्जों को सहत करते हुये जुताई कर सकता है। आधार पर लगी छड़ को आगे बढ़ा कर या पलट कर इसकी अवधि को सुनिश्चित किया जा सकता है एम. बी. प्लाऊ की उलट पलट की प्रक्रिया को हाइड्रोलिक वितरण प्रणाली में लगे लीवर से चलाया जा सकता है यंत्र को खींचने पर हल (प्लाऊ) का आधार 180° पर अपने आप होलो शाफ्ट के साथ धूम सकता है।

### विनिर्देश :—

लम्बाई (मि.मी.)	: 320
चौड़ाई (मि.मी.)	: 367 (आगे)
वजन (कि०ग्रा०)	: 260
हल (फल) आधार	: चार (दो प्रति दिशा)
रिवर्सिंग यंत्र	: हाइड्रोलिक / यंत्र प्रचालित
कवरेज क्षेत्र (हैक्टेयर / घंटा)	: 0.20 से 0.25
फील्ड दक्षता (%)	: 90
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	: 50 / 35.5 ऊपर ट्रैक्टर

### उपयोग :—

इसका उपयोग प्रथम जुताई में किया जाता है। यह घास रूपी कचरा को पुर्णतः नष्ट करता है। इसका उपयोग ही उर्वरक वाली फसलों को पलटने व भुमि में सड़ाने में किया जाता है। इससे मिट्टी में खाद की मात्रा बढ़ती है। इसका इस्तेमाल जमीन में चूना अथवा गोबर की खाद व फार्म की सड़ी गली उर्वरक को पलटने में भी किया जा सकता है।

लागत :— रु. 60,000—1,20,000 /—

### 4.3 डिस्क प्लाऊ



#### विशेषताएः—

इस प्लाऊ में साधारण फ्रेम होता है जिससे डिस्क बीम असेम्बली श्रेणी -1 अथवा श्रेणी -2 की राकशाफ्ट, उठाने योग्य स्प्रींग युक्त कूण्ड (फरो)हील तथा गेज हील लगे होते हैं। कुछ मॉडलों की संरचना आवश्यकतानुसार इस प्रकार की गई है ताकि उन्हें सबबीम या सबबीम असेम्बली निकालकर या जोड़कर दो या तीन बाट्म पर चलाया जा सकता है डिस्क के कोण की सीमा (रेंज)  $40^{\circ}$  से  $45^{\circ}$  तक होती है। जिससे की आवश्यक चौड़ाई का कट लिया जा सकता है। गहराई के लिए झुकाव (टिल्ट) कोण की सीमा (रेंज)  $15-25^{\circ}$  तक है डिस्क प्लाऊ का प्रयोग प्राथमिक जुताई के लिए किया जाता है।

#### विनिर्देश :-

कुण्डों (फरो की संख्या)	: 2-4
डिस्क साइज (मि.मी.)	: 600-800
लम्बाई (मि.मी.)	: 1180-2362
चौड़ाई (मि.मी.)	: 889-1194
ऊँचाई (मि.मी.)	: 1092-1118
प्रति डिस्क कट की चौड़ाई	: 200-300
समायोजन चौड़ाई	: 600-1200
वजन (किग्रा)	: 236-376
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	: 30-50, ट्रैक्टर

#### उपयोग :-

इसका उपयोग विशेषकर प्रथम जुताई के लिए किया जाता है और सख्त सूखी घास युक्त पथरीली अथवा ऊँची नीची भूमि की परिस्थितियों अथवा अबक्षारित भूमि में किया जाता है।

लागत :— रु. 30,000-45,000/-

#### 4.4 माउंटेड टाईन टाईप कल्टीवेटर



##### विशेषताएः—

कल्टीवेटर एक ढांचे एवं टाईन (स्थिर अथवा स्प्रींग) आधारित जिसमें पलटने योग्य शॉवल एवं थ्री पार्फाईट हिच सिस्टम (खिंचने वाली पद्धति) से मिलकर बना होता है। जब फसल जमीन से कुछ से.मी. ऊपर होती है। तब मुख्यतः कल्टीवेटर गुडाई के काम आता है। भूमि को तोड़ने, खेत की तैयारी और बुवाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ-साथ दूसरी जुताई के योग्य पशु चलित और ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर उपलब्ध है। बतख पैरनुमा (डकफुट) कल्टीवेटर का उपयोग प्राथमिक जुताई के लिए हल्की एवं मध्यम भूमि में किया जाता है।

##### विनिर्देश :—

###### बतख पैरनुमा (डकफुट) किस्म कल्टीवेटर

अपमार्जक (स्वीप) की संख्या	: 5–7
लम्बाई (मि.मी.)	: 1980–2310
चौड़ाई (मि.मी.)	: 839– 1150
ऊँचाई (मि.मी.)	: 1000–1050
वजन (कि०ग्रा०)	: 200–300
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	: 25–50 / 18.75–37.5 ट्रैक्टर

###### बेलचा (शॉवल) किस्म कल्टीवेटर

टाईन की संख्या	: 7–11
काटने की चौड़ाई (मि.मी.)	: 1500–2400
काटने की गहराई (मि.मी.)	: 175–225
वजन (कि०ग्रा०)	: 127–350
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	: 25–60 / 18.75–45 ट्रैक्टर

##### उपयोग :—

बतख पैरनुमा (डकफुट) कल्टीवेटर का उपयोग गुडाई, खरपतवार को नष्ट करने और भूमि की नमी को बनाये रखने में होता है। शॉवल टाईप कल्टीवेटर का इस्तेमाल बुवाई हेतु खेत की तैयारी के अलावा, फसल की पंक्तियों की दूरी के अनुकूल व्यवस्थित कर गुडाई के लिए किया जाता है।

लागत :— रु. 15,000— 25,000/-

Created with



**nitro**<sup>PDF</sup>  
Download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

#### 4.5 माउंटेड व ट्रेलर्ड डिस्क हैरो



##### विशेषताएः—

ट्रैक्टर आधारित डिस्क हैरो आगे पीछे दो डिस्क समूहों से मिलकर बना होता है। आगे के डिस्क बाहर की ओर मिट्टी फेकती है जब की पीछे के डिस्क समूह भीतर की ओर मिट्टी फेकती है। इसके कारण जमीन का कोई भी हिस्सा बिना जुताई के नहीं रहता है डिस्क हैरो द्वितीय जुताई करने का यंत्र है। इसका इस्तेमाल प्रथम जुताई के उपरान्त किया जाता है। तथा प्रथम जुताई में बने ढेलों को तोड़ने में किया जाता है।

##### विनिर्देश :—


लम्बाई (मि.मी.)	: 1980—2260
चौड़ाई (मि.मी.)	: 1150—1900
ऊँचाई (मि.मी.)	: 1143—1350
डिस्क की संख्या	: 10—16
डिस्क का डायमीटर (मि.मी.)	: 457—660
डिस्क की पिच	: 228—280
वजन (किग्रा)	: 330—490
क्षमता (हैक्टेयर / दिन )	: 2.5
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	: 20—60 / 15—45, ट्रैक्टर

##### उपयोग :—

इसका इस्तेमाल दूसरी जुताई एवं ढेलो को तोड़ने में और बुवाई हेतु खेत की तैयारी में किया जाता है।

लागतः— रु. 25,000—60,000 /—

#### 4.6 बतख पैरनुमा (डकफुट) कल्टीवेटर



##### विशेषताएः—

बतख पैरनुमा (डकफुट) कल्टीवेटर समानांतर चतुर्भुजाकार ढांचे में स्थिर टाईन एवं स्वीप से मिलकर बना होता है। स्वीप की आकृति त्रिकोणाकार एवं बतख के पैरनुमा होती है जिसके कारण इसको बतख पैरनुमा कल्टीवेटर कहते हैं। स्वीप को स्टील की पत्तीदार कमानी से बनाया होता है और टाईन्स से कसे होते हैं। जिससे इनको धिसने या बेकार होने पर बदला जा सकता है। टाईन्स को लचीली स्टील पट्टी को तपाकर बनाया जाता है यह ट्रैक्टर आधारित यंत्र है तथा जोतने की गहराई को हाइड्रोलिक सिस्टम से नियन्त्रित करते हैं यह स्वीप कल्टीवेटर काली कपास उगाई जाने वाली भूमियों के लिए प्रचलित है इसका उपयोग मुख्यतः सख्त भूमि में उथली जुताई के लिए किया जाता है।

##### विनिर्देश :-

स्वीप की संख्या	:	5,7,9
लम्बाई (मि.मी.)	:	1980—2810
चौड़ाई (मि.मी.)	:	830— 1150
ऊचाई (मि.मी.)	:	1000—1050
वजन (किंवद्वारा)	:	200—300
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	25—50 / 18.75—37.5 ट्रैक्टर

##### उपयोग :-

इसका उपयोग प्रथम जुताई, खरपतवार को नष्ट करने और भूमि की नमी को बनाये रखने के लिये किया जाता है।

लागतः— रु. 25,000/-

#### 4.7 रोटावेटर



##### विशेषताएः—

यह स्टील फ्रेम, थ्री पार्स्ट हिच सिस्टम (खींचने वाली पद्धति), घुमने वाली शाफ्ट (जिसमें ब्लेड चढ़े होते हैं) तथा शक्ति स्थानान्तरण पद्धति एवं गियर बाक्स से मिलकर बना होता है। इसके ब्लेड एल आकार के मध्यम कार्बन स्टील या अलॉय स्टील से सख्त व आवश्यकता के अनुरूप संतुलित कर बनाये जाते हैं। यह ट्रैक्टर की पी.टी.ओ. पावर का इस्तेमाल करता है। रोटावेटर का इस्तेमाल प्रथम जुताई एवं द्वितीय जुताई के लिए किया जाता है। इससे एक बार में अच्छी बीज शैव्या एवं मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल सूखी, सिंचाई वाली एवं पानीयुक्त (पडलिंग) दोनों भूमि में किया जाता है। इसका उपयोग भूमि में खाद एवं भूसा मिलाने के लिए भी किया जाता है। रोटावेटर की चौड़ाई के अनुसार पावर का प्रयोग होता है।

##### विनिर्देश :-

वजन (कि.ग्रा.)	: 230–310
वर्किंग चौड़ाई (मि.मी.)	: 1200–1720
वर्किंग गहराई (मि.मी.)	: 80–100
रोटर स्पीड	: 210–240
क्षमता (हैक्टेयर / घंटे)	: 0.38–0.5
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	: 35–65 / 26.25–48.75 ट्रैक्टर (रोटावेटर के साइज के आधार पर)

##### उपयोग :-

इसका उपयोग प्रथम एवं द्वितीय जुताई के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल धान लगाने हेतु गीली जुताई (पडलिंग) के लिए भी किया जाता है।

लागतः—रु. 70,000–1,00,000 / —

#### 4.8 कल्टीपेकर



##### विशेषताएः—

यह यंत्र विभिन्न कास्ट आयरन से बने हुये V आकार के गोलों से बना होता है जो कि तीन एक्सल पर आधारित होता है। यह यंत्र एक या तीन समूहों में प्रयोग किया जा सकता है कभी — कभी इसे भूमि को ठोस करने और नमी को संरक्षित करने हेतु डिस्क हैरो के पीछे लगाकर प्रयोग में लाया जाता है। यह खिचने वाला (टेल्ड) यंत्र है, जिसका प्रयोग मिट्टी के ढेलों को तोड़ने और भूमि की ऊपरी परत को ठोस करने में किया जाता है। जिससे भूमि की नमी संरक्षित हो।

##### विनिर्देश :—

समूह (गेंग) स्पान (मि.मी.)	:	1425
समूहों की संख्या	:	1—3
तीन समूह के साथ वर्किंग चौड़ाई (मि.मी.)	:	3200—4100
प्रत्येक समूह में रोलरों की संख्या	:	14
रोलर का डायमीटर (मि.मी.)	:	460
रोलर का वजन (कि.ग्रा.)	:	26
वजन (एक गेंग) (कि.ग्रा.)	:	450
कुल वजन (कि.ग्रा.)	:	1350
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	35 / 26.25, ट्रैक्टर

##### उपयोग :—

इसका उपयोग ढेलों को तोड़ने, मिट्टी की ऊपरी सतह को ठोस करने में किया जाता है ताकि भूमि में नमी संरक्षित हो सके।

लागत :— रु. 60,000—1,50,000 /—

Created with



**nitroPDF professional**  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

#### 4.9 गड्ढा खुदाई यंत्र (पोस्ट होल डिगर)



#### विशेषताएः—

यह स्टील फ्रेम, थ्री पार्स्ट हिच सिस्टम (खिंचने वाली पद्धति) और भेदनी (आगर) से मिलकर बना होता है। भेदनी (आगर) के लिए ट्रैक्टर की पी.टी.ओ. शाफ्ट से शक्ति मिलती है। भेदनी (आगर) को बदल कर गड्ढे के डायामीटर (गोलाई) व गहराई में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल पौधे लगाने हेतु गड्ढे करना और फैन्सिंग के लिए गड्ढे करने हेतु किया जाता है।

#### विनिर्देश :—

फिल्ड क्षमता (गड्ढे / घंटे)	: 12
भेदनी (आगर) का साईज (मि.मी.)	: 200,250,300
प्रचालन लागत (रु./गड्ढे)	: 12–15
शक्ति स्त्रोत (अश्वशक्ति / किलोवाट)	: 35 / 26.25, ट्रैक्टर

#### उपयोग :—

इसका उपयोग रोपण खेती /बागवानी फसलें लगाने, गड्ढे तैयार करने में किया जाता है इसके अतिरिक्त फार्म की फैन्सिंग के लिए भी गड्ढे तैयार करने में किया जा सकता है।

लागत :— रु. 70,000—1,25,000/-

#### 4.10 डिस्क टाईप गीली जुताई यंत्र (डिस्क टाईप पडलर)



##### विशेषताएः—

यह दो डिस्क समूह से मिलकर बना होता है। प्रत्येक समूह में छ: दॉतेदार डिस्क लगी होती है। यह गीली भूमि का कुछ भाग खोलकर उलटता है जिससे पानी भीतर घुसकर मिट्टी में मिल सके। घास फूस व हरी खाद को काट कर भूमि में मिलाकर समतल सतह बना देता है। इसके लिए सामान्यतः ट्रैक्टर में न्यूमेटिक टायर के अतिरिक्त केज व्हील की आवश्यकता होती है। समतलीकरण पट्टी (लेवलिंग बोर्ड) खेत में कीचड़ को समतल करने हेतु लगाई है।

##### विनिर्देश :—

लम्बाई (मि.मी.)	:	1066
चौड़ाई (मि.मी.)	:	1828
ऊचाई (मि.मी.)	:	1320
गेंग की संख्या	:	2
डिस्क की संख्या	:	12
डिस्क का डायमीटर (मि.मी.)	:	457
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	35 अश्वशक्ति और अधिक

##### उपयोग:—

धान की रोपाई से पूर्व खेत में पडलिंग करना।

लागत :—₹. 20,000/-

Created with



**nitro**<sup>PDF</sup>  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

#### 4.11 केज व्हील



##### विशेषताएः—

ट्रैक्टर के न्यूमेटिक व्हील के स्थान पर पूर्ण केज व्हील उपयोग में आते हैं और न्यूमेटिक व्हील के साथ आधे केज व्हील का इस्तेमाल किया जाता है।

##### विनिर्देश :—

टाइप	:	आधे केज व्हील	पूर्ण केज व्हील
बाहरी डायामीटर (मि.मी.)	:	1085	1210
चौड़ाई (मि.मी.)	:	340	900
लग व किस्मों की संख्या	:	12, सीधे लग एंगल आयरन फ्रेम में वेल्ड किये हुये	24 सीधे लग, एम एस एंगल सेक्शन बने हुये और एंगल आयरन फ्रेम में वेल्ड किए हुए
एंगल सेक्शन का साइज (मि.मी.)	:	50X50X4.5	40X40X4
लग की लंबाई (मि.मी.)	:	340	444
लग में अंतराल (मि.मी.) (लग में स्पेसिंग)	:	275	290
प्रत्येक केज व्हील का वजन (कि.ग्रा.)	:	60	120

##### उपयोग :—

धान के पौध रोपने से पूर्व खेत की गीली जुताई (पड़लिंग) करने में किया जाता है।

लागतः—रु. 15,000/-

Created with

5. बीज एवं उर्वरक बुवाई यंत्र
  - 5.1 बीज व उर्वरक बुवाई यंत्र
  - 5.2 जिरो टिल ड्रिल (बिना जुताई यंत्र)
  - 5.3 रेजड बेड प्लान्टर
  - 5.4 इन्कलाईन्ड प्लेट प्लान्टर
  - 5.5 न्यूमेटिक फील्ड फसलीय प्लान्टर
  - 5.6 स्ट्रीप टिल सीड ड्रिल (कतारी बीज रोपण यंत्र)
  - 5.7 आठ पैकितयों वाला चटाईनुमा धान रोपाई यंत्र
  - 5.8 गन्ना काटने व बोने वाला यंत्र
  - 5.9 सब्जी फसल रोपण यंत्र

Created with



25

**nitro**<sup>PDF</sup>  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

**nitro**<sup>PDF</sup>

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

## 5.1 बीज व खाद बुवाई यंत्र



### विशेषताएः :-

बीज व खाद बुवाई यंत्र बीज पेटी, खाद पेटी, बीज व खाद मापक प्रणाली (मैकनिज्म), बीज व खाद पाइप, कूड़ बनाने वाले फल, बीज एवं खाद मात्रा नियंत्रक लीवर, चेन, स्प्रॉकेट व शक्ति स्थानांतरित करने वाले दांतेदार पहिए से मिलकर बना होता है। झिरीदार रोलर को शाफ्ट धुमाती है जिसे पहिए द्वारा शक्ति मिलती है झिरीदार रोलर बीज बाक्स में लगे होते हैं तथा लम्बे, खाँचों के द्वारा बीज खुले कुंड में पाइप से गिरते हैं। झिरीदार रोलर को एक तरफ खिसकाने से खाँचेनुमा नाली बीज के सामने आती है और जिसको घटा-बढ़ा कर बीज की मात्रा को कम या ज्यादा किया जा सकता है। लीवर से बक्से के छेदों के आकार को घटा-बढ़ा कर खाद की मात्रा को कम या ज्यादा किया जा सकता है।

### विनिर्देश :-

लम्बाई (मि.मी.)	:	1940–2310
चौड़ाई (मि.मी.)	:	970–1560
ऊचाई (मि.मी.)	:	1070–1350
बीज मीटरिंग मैकेनिज्म	:	झिरीदार रोलर
खाद मीटरिंग मैकेनिज्म	:	गुरुत्व द्वारा विडोलक चलित
कुण्ड बनाने वालों की संख्या एवं प्रकार	:	9–13, रिवर्सिवल शॉवेल
बीज बाक्स की क्षमता (सेमी <sup>2</sup> )	:	66241–10308
खाद बाक्स की क्षमता (सेमी <sup>2</sup> )	:	63310–10141
वजन (कि.ग्रा.)	:	224–238
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	35 / 26.25, ट्रैक्टर

### उपयोग:-

इसका इस्तेमाल पहले से तैयार किये गये खेतों में गेहूं एवं अनाज की बुवाई हेतु किया जाता है।

लागतः— रु. 35,000 /—

Created with



**nitro**PDF®  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

## 5.2 जीरो टिल ड्रील



### विशेषताएः :-

बिना जुताई (जीरो टिल) ड्रील का पंजे बीज बाक्स, खाद बाक्स, बीज व खाद मापक प्रणाली (मेकनिज्म), / खाद पाइप, कुंड बनाने वाले फल, बीज एवं खाद नियंत्रक लीवर, चेन, स्प्रॉकेट व शक्ति स्थानांतरण करने वाले पहिए से मिलकर बना होता है। इसका ढाँचा माइल्ड स्टील बाक्स से बना होता है। उल्टे टी अक्षर आकृति के पंजे / फल (टाइन) पर नट बोल्ट से लगे होते हैं। पंक्तियों से पक्तियों की दूरी के हिसाब से समायोजन किया जा सकता है। बिना जुताई एवं उथली कुंड मशीन तथा पुरानी पद्धति की कुंड वाली मशीन में मुख्य अंतर यह होता है कि इसमें टी टाइप कुंड खोलने वाले फाल लगे होते हैं। यह कम शक्ति पर तथा आसानी से जमीन में घुसती है और सिर्फ बीज गिरने जितनी ही भूमि खोलती जाती है।

### विनिर्देश :-

उपयुक्त	:	गेहूँ आदि
समग्र विन्यास (मि.मी.) (ल.xचौ.xउ.)	:	1800X600X1100
वजन कि.ग्रा.	:	250
कुण्ड ओपनरों की संख्या	:	9 – 11
लाइन से लाइन की दूरी (मि.मी.)	:	2000
क्षमता (हैक्टेयर / घंटा)	:	0.45 से 0.65
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	35 / 26.25, ड्रैक्टर

### उपयोग :-

इसका प्रयोग धान की कटाई के बाद बिना तैयार किए गए खेत में गेहूँ की बुवाई के लिए किया जाता है।

लागत :- रु. 35,000–50,000/-

### 5.3 रेज्ड बेड प्लान्टर



#### विशेषताएः—

यह बीज बॉक्स, खाद बॉक्स, बीज व खाद की मापक प्रणाली (मेकेनिज्म), 3 मेढ़ बनाने वाले फल, चेंन, स्प्रॉकेट, शक्ति स्थानांतरक पहिया, बीज व खाद नियंत्रक लीवर और परत को दबाने हेतु रोलर से मिलकर बना होता है। यह बुवाई यंत्र समतल परत बनाता है जिन पर बीज की बुवाई की जाती है चूंकि बीज की बुवाई परतों पर की जाती है जिससे जड़ों का अच्छा विकास और अच्छी उपज प्राप्त होती है इससे बने कुंडों से सिंचाई की जाती है यह मशीन गेहूँ मक्का मटर इत्यादि एवं सब्जीयों के बीजों की भी बुवाई के लिए भी उपयुक्त है।

#### विनिर्देश :—

उपयुक्त	:	गेहूँ, मक्का, मटर, दाल आदि
वजन कि.ग्रा.	:	230
समग्र विन्यास (मि.मी.) ल.xचौ.xउ.	:	1200X2200X1200
कार्यकारी चौड़ाई (मि.मी.)	:	1800
क्षमता (हैक्टेयर / घंटा)	:	0.26
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	45 / 33.85, ट्रैक्टर

#### उपयोग :—

हल्की एवं मध्यम भूमि में परतों पर गेहूँ की बुवाई करने से सिंचाई के पानी एवं खाद की किफाइती बचत होती है।

लागत :— ₹. 45,000/-

## 5.4 इन्कलाइंड प्लेट प्लान्टर



### विशेषताएँ :-

ट्रैक्टर आधारित छ: लाइन वाला इन्कलाइन्ड प्लेट प्लान्टर मोटा व छोटा दाने वाला बीज, जिन्हे परंपरागत सीड ड्रिल या पूरानी पद्धति से नहीं बोया जा सकता है उन्हें इस यंत्र के द्वारा सन्तोषजनक रूप से बोया जा सकता है यह प्लान्टर का फ्रेम, टूल बार सहित मॉड्युलर डिजाइन बीज बक्सा, इन्कलाइन्ड प्लेट प्रकार बीज मीटरिंग पद्धति से बना होता है। बीज, प्लेटों को बीजों के अनुसार चयनकर बदल सकते हैं।

### विनिर्देश :-

उद्देश्य	:	बुआई / पौध रोपण
उपयुक्ता	:	मुंगफली, चना, सोयाबीन व सरसों
समग्र डायमेन्शन (लं. X चौ. X ऊ.) (मि.मी.)	:	2500 X 1215 X 1010
कतार की संख्या	:	6
प्रेक्षत्र क्षमता (हैक्टेयर / घंटा)	:	0.45–0.65
प्रचालन खर्च (रु. / हैक्टेयर)	:	700
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	35 / 26.3, ट्रैक्टर

### उपयोग :-

इस प्लान्टर से मोटे दाने जैसे मुंगफली, मक्का, काबुलीचना इत्यादि या बहुत बारीक बीज जैसे सरसों, ज्वार इत्यादि जिन्हें पूरानी पद्धति की मशीन से नहीं बोया जा सकता है। इस प्लान्टर का उपयोग एक फसल के बीच दूसरी फसल की बुवाई करने में भी उपयुक्त है।

लागत :- रु. 50,000/-

Created with

## 5.5 न्यूमेटिक प्लान्टर



### विशेषताएः—

ट्रैक्टर आधारित प्लान्टर है जिसमें ट्रैक्टर की पी. टी. ओं. चलित सेंट्रीफ्युगल ब्लोअर लगा होती है जिसके द्वारा आवश्यक हवा का प्रेशर बना कर मीटरिंग पद्धति से बीजों को उठाकर गिराया जाता है। इससे पूर्व— निर्धारित पैकित की दूरी पर एक—एक बीज की बुवाई की जा सकती है। यह यंत्र मुख्य चूषक पंखा, कोटरी टाईप मीटर प्लेट, स्वतंत्रत बाक्स, कुंड खोलने वाला फल पी. टी. ओं. चलित शक्ति तथा जमीन से लगकर चलने वाले पहिए से मिलकर बना होता है यह यंत्र सरसों, ज्वार, सोयाबीन, कपास, अरहर, मक्का, मुँगफली, भिन्डी आदि की बुवाई के लिए उपयुक्त हैं।

### विनिर्देश :—

उद्देश्य	:	बुआई / बीज रोपण
उपयुक्ता	:	मुँगफली, चना, सोयाबीन व सरसों
समग्र विन्यास (मि.मी.) (लं. X चौ. X ऊ.)	:	1450 x 2450 x 1250
कार्यकारी चौड़ाई (मि.मी.)	:	2000—3000
कार्यकारी गहराई (मि.मी.)	:	100
प्रचालन गति (किमी./घं)	:	3.0 — 5.0
प्रक्षेत्र क्षमता (हैक्टेयर / घंटा)	:	0.5— 1.0
प्रक्षेत्र दक्षता (प्रतिशत)	:	60—65
वजन (किग्रा.)	:	200
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	35 / 26.25, ट्रैक्टर

### उपयोग :—

इसका इस्तेमाल पूर्व निर्धारित पैकित में दूरी पर बीज की बुआई के लिए किया जाता है।

लागतः— रु. 70,000— 80,000/-

## 5.6 स्ट्रिप टिल सीड ड्रील



### विशेषताएः :-

इसका उपयोग धान कटाई उपरांत बिना जुताई किये गेहूँ की बुवाई के लिए किया जाता है। इससे 50–60 प्रतिशत ईंधन की बचत और सीड ड्रील की तुलना में 65–75 प्रतिशत समय की बचत होती है। इससे समय पर बुवाई करने पर उपज की मात्रा बढ़ती है। इसमें लगे रोटर का इस्तेमाल गीली जुताई (पड़लिंग) के लिए भी किया जा सकता है। इसमें एक मानक बुवाई यंत्र है। जिसके आगे की ओर रोटावेटर लगा होता है। इस रोटावेटर में सी टाइप के ब्लेड होते हैं जो बीज हेतु कुंड खोलने वाले फलक के सामने 7.5 सेमी एक चौड़ाई की परत काटता है। इस प्रकार दो पक्कित के मध्य 125 मिमी की पट्टी बिना जुताई और बाकी 40 प्रतिशत क्षेत्र की जुताई होती है इससे जुताई और बुआई साथ – साथ होती है।

### विनिर्देश :-

उपयुक्ता	:	गेहूँ
पावर स्ट्रोत	:	35 अश्वशक्ति ट्रैक्टर
समग्र डायमेन्शन (मि.मी.) (लं. x चौ x ऊ)	:	2290 x 1370 x 1050
वजन कि.ग्रा.	:	350
प्रचालन चौड़ाई (मि.मी.)	:	1800
पॅकितियों की संख्या	:	9–11
पॅकित से पॅकित में अंतराल (मि.मी.)	:	200
बुआई की गहराई (मि.मी.)	:	30.50
क्षमता (हैक्टेयर / घंटा)	:	0.25–0.4, ट्रैक्टर

### उपयोग :-

इसका उपयोग धान कटाई के पश्चात बिना जुताई किये खेतों में गेहूँ की बुवाई के लिए किया जाता है।

लागत :- रु. 45,000/-

## 5.7 आठ पक्तियों वाला चटाईनुमा (मेट टाइप) धान की पौध रोपने वाला यंत्र (पैडी ट्रांसप्लांटर)



### विशेषताएः :-

यह यंत्र एक पहिये से चलता है और इसमें डीजल इंजिन लगा होता है यह मशीन सवारी युक्त तथा एक ही बार में चटाईनुमा पौध (मेट टाइप) से एक बार में आठ पक्तियां रोपाई करती है। चलने वाले पहिए को शक्ति इंजिन के (V) बेल्ट कोन क्लच और गियर बाक्स से प्राप्त होती है। गियर बाक्स से आने वाली प्रोपेलर शाफ्ट ट्रे (पट्टी) को शक्ति देती है जिनमें चटाईनुमा पौध रखी होती है वो एक तरफ खिचने वाली पद्धति से खिंचती है, जो इंजिन से घुर्णी शक्ति प्राप्त करके आगे पीछे धक्के में बदलता है। जिसे इंजिन की बेल्ट पुली युनिवर्शल जायन्ट शाफ्ट के द्वारा ट्रे रॉड के माध्यम से पौध की ट्रे से जुड़ी होती है और पौध की ट्रे में ऐसा प्रावधान होता है कि वह ट्रै अपने छोर तक जाकर वो वापस लौटती है स्थिर काटेदार उंगलीनुमा रोपाई नोक (घुरीय प्रकार की) फोर से वांल लिकेंज के द्वारा घुम कर रोपाई नोक को निर्धारित दिशा निर्देश देती है इसका उपयोग कीचडनुमा खेत में धान की रापोई हेतु किया जाता है। स्वचलित चटाईनुमा धान की रोपाई वाली मशीन 4 व 6 पैकित में भी उपलब्ध है।

### विनिर्देश :-

पक्तियों की संख्या	:	6—8
लंबाई (मि.मी.)	:	2410
चौड़ाई (मि.मी.)	:	2130
ऊँचाई (मि.मी.)	:	1300
पक्ति में अंतराल (मि.मी.)	:	238
ढेरो (हिल)के मध्य अन्तर (मि.मी.)	:	140 व 170
वजन (कि.ग्रा.)	:	320
कार्य क्षमता (हैक्टेयर / घं)	:	0.57
प्राईन मुअर (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	4.4 / 3.3 एयर कूल्ड डीजल इंजिन

### उपयोग :-

इसका इस्तेमाल धान की पौध की रोपाई हेतु किया जाता है।

लागत :- रु. 1,75,000 — 10,00,000/-

## 5.8 गन्ना काटने व बोने वाला यंत्र



### विशेषताएः :-

यह मशीन में एक कुँड खोलने वाली इकाई, गन्ने के टुकड़े बनाने वाली खाद, गिरने वाली इकाई, रसायन गिराने वाली इकाई, गन्ने के टुकड़े रखने वाला बाक्स और टुकड़ों को ढकने वाली युनिट से मिलकर बनी होती हैं इसके ढांचे में दो कुँड खोलने वाले फलक लगे होते हैं जो नाली नुमा कुँड खोदते चले जाते हैं। इस मशीन में गन्ने के टुकड़े काटने वाली दो इकाई होती है प्रत्येक इकाई एक पैकित लिए होती है इसको चलाने के लिए दो श्रमिक मशीन पर बैठ कर लोहे की बाक्स में रखे गन्नों को एक-एक उठाकर कटाई युनिट में डालते हैं घुमने वाले ब्लेडों से गन्ने के टुकड़ों को काट कर अपने आप नालीनुमा कुँड में गिरते हैं नालीनुमा कुँड में गिरने से पूर्व गन्ने के टुकड़ों के साथ साथ खाद रसायन भी गिरता है।

### विनिर्देश :-

लम्बाई (मि.मी.)	:	2070
चौड़ाई (मि.मी.)	:	1850
ऊँचाई (मि.मी.)	:	2100
पैकित से पैकित में अन्तराल (मि.मी.)	:	600–1050
खाद मीटरिंग प्रणाली	:	गुरुत्व द्वारा
कुँड खोलने वाले फल की संख्या	:	2
फिल्ड क्षमता (हैक्टेयर / घंटा)	:	0.2
वजन कि.ग्रा.	:	475
शक्ति स्त्रोत (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	35 / 26.25, ट्रैक्टर

### उपयोग :-

इसका उपयोग गन्ने को आवश्यकता अनुसार लम्बाई में काटकर कुँड नुमानाली बनाकर उसमें टुकड़ों को डालना, कुँड नुमानली को ढकने से पूर्व उसमें खाद व रसायन गिरा कर गन्ने की बुवाई में किया जाता है।

लागत :- रु. 50,000– 60,000/-

Created with

## 5.9 सब्जी फसल रोपण यंत्र



### विशेषताएः—

इस मशीन में पौध रखने की ट्रै चालक के लिए सीट, कुण्ड खोलने वाले फलक मिट्टी दबाने वाले पहिए, गोलाकार (पिकर व्हील टाईप) पकड़ने वाली मीटरिंग पद्धति से मिलकर बना होता है। फोर्क में कमानीदार रबर पल्ले लगे होते हैं जो गड्ढों के ऊपर से गुजरने के पूर्व गड्ढे में जाकर खुलकर फिर बंद होकर ऊपर से गुजरता है इसमें दो तिरछे पहिए पौधे के चारों ओर मिट्टी दबाते हैं। इस मशीन पर दो आदमी बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक पक्ति में लगाने वाली पौध को खुले हुए पल्ले में रखता है जब वह ऊपर आता है। पौधे की जड़ों को चालक की ओर करके रखा जाता है।

### विनिर्देश :-

लम्बाई (मि.मी.)	:	1830
चौड़ाई (मि.मी.)	:	1520
ऊचाई (मि.मी.)	:	1160
पक्तियों की संख्या	:	2
मीटरिंग मेकेनिज्म	:	पिकर व्हील टाईप
पिकअप फिंगरो की संख्या	:	10
पिकर की किस्म	:	रब्बर फ्लेपर
पैकिंग का अंतराल (मि.मी.)	:	600
पानी देने की व्यवस्था	:	दो नोजल
समतल व्हील का डायामीटर (मि.मी.)	:	520
मशीन का वजन कि.ग्रा.	:	225
शक्ति स्त्रोत (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	35 / 26.25, ट्रैक्टर

### उपयोग:-

इस मशीन का उपयोग सब्जियों जैसे बैंगन, फूलगोभी, मिर्च, टमाटर आदि पौध की रोपाई में किया जाता है।

लागत :— रु. 35,000— 40,000/-

Created with

6 इन्टर कल्वर उपकरण

6.1 कोनो वीडर निदाई (मानवचलित)

6.2 स्वचलित पावर वीडर

Created with

35

 **nitro**<sup>PDF</sup> professional  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

## 6.1 कोनो वीडर निदाई



### विशेषताएः :-

यह यंत्र दो चक्रों पलोर फ्रेम ढारों तथा हृत्थे से मिलकर बना होता है चक्रीयों का आकार कोन पतवार जैसा चिकना तथा जिस पर दांते इसकी लम्बाई के अनुसार लगी होती है। इसके दोनों चक्र विपरित दिशा में आगे-पीछे लगे होते हैं इसका पलोर मशीन की इच्छित गहराई पर नियन्त्रित रख चक्रीयों की यूनिटों को नीचे धसने से रोकती है। कोनो वीडर को धकेल कर चलाया जाता है। आगे पीछे लगे चक्रों द्वारा जमीन की ऊपरी सतह में आगे पीछे की चाल द्वारा खरपतवार को उखाड़ता है।

### विनिर्देश :-

लम्बाई (मि.मी.)	:	370
ऊचाई (मि.मी.)	:	1400
टाइप	:	हस्तचलित
वजन (किग्रा.)	:	5 से 6
चक्रों की संख्या	:	2
क्षमता (हैक्टेयर / दिन)	:	0.18
पावर स्ट्रोत	:	एक मानव

### उपयोग :-

कोनो वीडर के उपयोग से पैकित युक्त धान की फसल के मध्य खरपतवार को तेजी से निकला जा सकता है इसको आसानी से चला सकते हैं तथा यह जमीन में नहीं धसता है।

लागत :- रु. 1500—2000/-

Created with

## 6.2 स्वचलित पावर वीडर (खरपतवारनाशी)



### विशेषताएः—

इसका ढांचा जिस पर टूलवार कूण्ड फलक, इंजन, ब्रेक सहित हत्था, क्लच तथा दो स्टील के पहिए से मिलकर बना होता है। यह स्वयं की शक्ति से चलने वाला वीडर है। यह 3 अश्व शक्ति / 2.3 कि.वॉट के पेट्रोल से आरंभ करके मिट्टी का तेल (केरोसीन) से चलाया जाता है। सी.आई.ए.ई. द्वारा निर्मित स्वचलित वीडर ऊपरी भूमि में 30 सेमी<sup>0</sup> से अधिक चोड़ी कतारों में बोई गई फसले जैसे मूगांफली, मक्का, सोयाबीन अरहर इत्यादि में खरपतवार निकालने के उपयुक्त है।

### विनिर्देश :—

उपयुक्तता	:	गन्ना, कपास, मक्का, केला, नारियल आदि
कार्यकारी चौड़ाई मि.मी.	:	350–370
प्रक्षेत्र क्षमता (हैक्टेयर / घंटा)	:	
I) निर्दार्श	:	0.06
II) मिट्टी चढ़ाना —	:	0.14
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	3 / 2.5 इंजन

### उपयोग :—

इसका इस्तेमाल फसलों में मिट्टी चढ़ाने एवं खरपतवार निकालने में किया जाता है।

लागत :— ₹. 80,000/-

Created with



**nitroPDF professional**  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

## 7 पौध संरक्षण यंत्र

- 7.1 नेपशेक स्प्रेयर
- 7.2 नेपशेक पॉवर स्प्रेयर
- 7.3 ट्रैक्टर चालित बूम स्प्रेयर
- 7.4 ट्रैक्टर चालित एयरो ब्लास्ट स्प्रेयर

Created with

38



## 7.1 नेपशेक स्प्रेयर (हस्तचलित)



### विशेषताएः—

इसमें एक पम्प तथा एयर चेम्बर जो स्थायी रूप से 9 से 22.5 लीटर की टंकी में लगे होते हैं पम्प का हैण्डल चालक के कन्धे के ऊपर या हाथ के नीचे से निकला हुआ होता है ताकि इसे एक हाथ से चला कर दूसरे हाथ से छिड़काव किया जा सके। इसमें छिड़काव वाली छड़ी जिसमें नोजल लगी होती है तथा चालक के पीठपर लटकाने हेतु दो बेल्ट लगी होती है। इसके पंप को लगातार चलाने पर छिड़काव का दबाव बना रहता है।

### विनिर्देश :—

टंकी की क्षमता	:	9–22.5
पंप सिलेण्डर का आंतरिक व्यास (मि.मी.)	:	39–42
कक्ष क्षमता (मि.ली.)	:	572–660
निकासी स्पाउट की संख्या	:	1
लान्स की लम्बाई (मि.मी.)	:	725
नोजल की टाईप	:	होलो कोन
छिड़काव का कोण	:	78 डिग्री
पंप निकासी (मि.मी.)	:	610–896
क्षमता (हैक्टर / दिन)	:	0.7–1.00
शक्ति की आवश्यकता	:	एक मानव

### उपयोग :—

छोटे पोधौ, झाड़ी एवं पकितयों में बोई गई फसलों पर कीटनाशक छिड़कने के लिए किया जाता है।

लगतः— रु. 2500/-

Created with

## 7.2 नेपशेक पॉवर स्प्रेयर



### विशेषताएः—

इसके ढांचे में उच्चघनत्व पालीथिन टंकी, ईधन टंकी, इंजन निकासी पाईप, झटका अवरोधी गद्दी और छिड़काव होज लगे होते हैं। इसका पंप समान्तर दिशा में चलता है तथा यह शक्तिशाली और स्थिर दबाव बनाए रखता है। इससे दोहरे सिलेण्डर का पंप होने से इसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। इसका पिस्टन तपा हुआ और घिसावट प्रतिरोधी होता है वी (v) आकार की पैडिंग एक विशेष प्रकार की सामग्री से बनी होने से लम्बे समय तक चलती है इंजन में इलेक्ट्रोनिक दहन प्रणाली लगी होने से इसे आसानी चलाया जाता है और रखरखाव भी किया जाता है इसका इंजन उच्च शक्ति का होने से किसी भी दबाव अनुपात में कार्य करता है यह गैसोलिन को ईधन स्वरूप इस्तेमाल कर एक पॉवर स्ट्रोक में 1800 बार क्रेंक घुमात है। बाल्व के द्वारा प्रेशर नियन्त्रित होता है। छिड़काव के दबाब को भी 30 कि.ग्रा./से.मी.<sup>2</sup> तक आसानी से बदला जासकता है इसकी संरचना सख्त सामग्री की होती है जिससे रखरखाव आसानी से किया जा सकता है इसका इस्तेमाल धूलीकरण (डस्टिंग) और अल्ट्रालोवाल्यूम के लिए भी किया जा सकता है।

### विनिर्देश :-

लम्बाई (मि.मी.)	:	650
चौड़ाई (मि.मी.)	:	450
ऊचाई (मि.मी.)	:	570
वजन कि.ग्रा.	:	9.8
प्लान्जर	:	एक नं. डबल एकिटंग
पंप सिलेण्डर का आन्तरिक व्यास (मि.मी.)	:	16
स्ट्रोक (मि.मी.)	:	8
छिड़काव आयतन	:	4.8 — 5.2
दाब (कि.ग्रा./से.मी <sup>2</sup> )	:	20—25
क्षमता (हैक्टेयर / दिन)	:	1.5

### उपयोग :-

इसका प्रयोग धान/फलों और सब्जियों की फसलों पर किटनाशक पफुंदी नाशको का छिड़काव हेतु उपयुक्त है।

लागत :- रु. 12,000/-

Created with



**nitro**<sup>PDF</sup>  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

### 7.3 ट्रैक्टर चालित बूम स्प्रेयर



#### विशेषताएः—

यह स्प्रेयर टैक (टंकी) जो फाइवर ग्लास या प्लास्टिक से निर्मित, पम्प छलनीयुक्त चूषक पाईप प्रेशर गेज, प्रेशर नियंत्रक, एयर चेम्बर निष्कासिता पाईप स्प्रे बूम जिसमें नोजल लगी हुई है से मिलकर बना होता है इसमें पम्प ट्रैक्टर की पी. टी. ओ. की शक्ति से चलता है। अधिकतम रूप से इस स्प्रे बूम से स्प्रे नीचे की ओर या ऊपर की ओर करके किया जा सकता है। ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बूम की रचना ऊँची फसलों के अनुरूप होती है और इस प्रकार की फसले और ऐसी फसलें लगाते समय पकितायों के मध्य लगभग 2.5 मीटर की चौड़ाई ट्रैक्टर के आने जाने के लिए छोड़ी जाती है इस प्रकार बोई गई फसलों की पट्टी 18 से 20 मीटर चौड़ी तथा प्रत्येक पट्टी के मध्य एक खाली पट्टी ट्रैक्टर के चलने हेतु छोड़ी जाती है। जमीन पर स्प्रे करने के लिए ट्रैक्टर की चौड़ाई को ध्यान में रखने हुए पौधों को पकितबद्ध बोया जाता है। इसलिए छोटी फसलों में इसका इस्तेमाल उपयुक्त है। पुरा स्प्रेयर ट्रैक्टर की 3 पाईण्ट लिंकेंज पर आधारित होता है।

#### विनिर्देश :-

नोजल की संख्या	:	21
स्प्रे स्वॉथ (मीटर)	:	10.2
दो नोजलों के मध्य दूरी (मि.मी.)	:	460
टेक की क्षमता (लीटर)	:	400
वजन (किग्रा.)	:	150
बूम की ऊँचाई रेंज का समायोजन (मि.मी.)	:	300 से 1260
प्रक्षेत्र क्षमता (8 हैक्टेयर / दिन)	:	8 घ / दिन (21 नाजल के साथ)
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	35 / 26.5, ट्रैक्टर

#### उपयोग :-

इसका इस्तेमाल उद्यानों, फूल सब्जियों को फसलें और अंगूर के बगीचों में तथा ऊँची फसलें जैसे :— गन्ना, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा आदि पर छिड़काव के लिए किया जाता है।

लागत : रु. 50,000/-

Created with

## 7.4 एयरों ब्लास्ट स्प्रेयर



**विशेषताएः—**

यह मशीन 400 लीटर की क्षमता वाली टंकी, पंप, ब्लोअर, नियंत्रक वाल्व, भराई ईकाई इच्छानुसार स्पाउट धुमाने वाले हत्थे के साथ प्रेशर रेगुलेटर (दबाव नियन्त्रण) से मिलकर बनी होती है और स्प्रे करने वाली नोजल कीटनाशक के घोल को सेट्रीफ्यूगल धोकनी से निष्कासित वायु के वेग से छोड़ती है। इसके वायु वेग के रास्ते में रसायन सूक्ष्म कणों में बटकर निश्चित दायरें में गिरते हैं। जिसे ट्रैक्टर की किसी एक दिशा में किया जाता है। मुख्य वायु मार्ग से निकले सुक्ष्म पानी के कण दूर क्षेत्र तक फैल कर गिरते हैं जबकि फव्वारेदार टोटी में ही लगी सहायक नोजल से ट्रैक्टर के पास वाले व बचे क्षेत्र में छिड़काव होता है स्प्रेयर ट्रैक्टर के 3-पॉर्झन्ट लिंकेज पर आधारित होकर पी.टी.ओ. शक्ति से चलता है इससे निकलने वाले हवा युक्त घोल के कणों की बौछार चौड़ाई व दिशा को समायोजित किया जाता है।

**विनिर्देश :-**

उपयुक्त	:	बागवानी पौधो, ऊँची फसलें जैसे, कपास, सूर्यमुखी आदि।
समग्र विन्यास (लंxचौxऊँ) (मि.मी.)	:	1100 x 1300 x 2050
वजन कि.ग्रा.	:	230
बहाव दर (ली./मिनट)	:	120
स्प्रे स्वाथ (मी.)	:	13—15
फील्ड क्षमता (हैक्टेयर/घंटा)	:	1.5—2.0
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	35 / 26.5 ,ट्रैक्टर

**उपयोग :-**

इसका इस्तेमाल बागवानी के पौधो ऊँची, फसलों जैसे :— गन्ना, कपास में पादप संरक्षण के लिए किया जाता है।

**लागत :—रु. 85,000/-**

8. फसल कटाई मशीन
  - 8.1 स्वतः चलित वर्टिकल कन्वेयर रीपर
  - 8.2 ट्रैक्टर आधारित वर्टिकल कन्वेयर रीपर
  - 8.3 स्वचलित रीपर
  - 8.4 स्वचलित कम्बाइंन हार्वेस्टर
  - 8.5 स्वचलित रीपर बार्झण्डर
  - 8.6 स्ट्रा बेलर
  - 8.7 स्ट्रा रीपर / स्ट्रा कम्बाइंन
  - 8.8 श्रॅब मास्टर

Created with

## 8.1 स्वतचलित वर्टिकल कन्वेयर रीपर



### विशेषताएः :-

यह फ्रेम फसल की पैकित विभाजक, तारेनुमा व्हील, कटरबार खॉचेदार बेल्ट एवं क्लच ब्रेक सहित हैंडल से मिलकर बना होता है। यह मशीन फसल को काट कर उसे खड़ी अवस्था में दूसरी तरफ को ले जाकर जमीन पर समान रूप से गिराती जाती है। इसलिए फसल को व्यक्ति द्वारा आसानी से इकट्ठा कर उसके गढ़े बनाए जाते हैं। पैदल चालक के अलावा स्वचालित बैठकर चलाने वाली और ट्रेक्टर अधारित प्रकार की वर्टिकल कन्वेयर रीपर भी उपलब्ध हैं। ये मशीने गेहूँ व धान की फसल काटने के लिए उपयुक्त हैं। इस रीपर से फसल कटते समय दाना छिटकता नहीं है।

### विनिर्देश :-

विन्यास (लं.xचौxजॉ) (मि.मी.)	:	2570 x 1850 x 1250
वजन (कि.ग्रा.)	:	85
फसल पैकित विभाजन संख्या	:	6
कटाई इकाई की किस्म	:	दांतेदार व्ही आकार ब्लोडों के साथ कटरबार
शक्ति स्त्रोत	:	8–10 अ. श.
क्षमता (हैक्टेयर / घंटा)	:	0.20–0.40
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	5 / 3.75 इंजन

### उपयोग :-

इसका इस्तेमाल गेहूँ व धान की कटाई के लिए किया जाता है।

लागतः— रु. 1,00,000/-

Created with

## 8.2 ट्रैक्टर आधारित वर्टिकल कन्वेयर रीपर



### विशेषताएः :-

यह मशीन में दांतेदार 76 मि. मी. पिच कटरबार पट्टी जो आगे पीछे चलती है सात पैकितयों में बाटने वाला विभाजक चलने वाली दो खड़ी बेल्ट जिसमें पकड़ (लँग) लगे होते हैं प्रेशर स्प्रिंग पुली (धिरनी) पॉवर ट्रॉसमिशन (शक्ति स्थान्तरित/पद्धति) का गियर बाक्स से मिलकर बनी होती है। फसल की पैकित विभाजक कटरबार के सामने के ऊपर की ओर लगे होते हैं, इन विभाजनों के ऊपर तारेनुमा पहिए लगे होते हैं। यह मशीन ट्रैक्टर के आगे समुख भाग पर आधारित होती है। ट्रैक्टर के नीचे के भाग से होती हुई एक शाफ्ट से जुड़कर ट्रैक्टर की पी.टी.ओ. शक्ति को लाकर मशीन चलती है। जमीन से मशीन की ऊँचाई का नियन्त्रण धिरनी और स्टील पहियों की मदद से ट्रैक्टर की हाइड्रॉलिक पद्धित से किया जाता है। कटरबार से फसल कटने के बाद छोर तक जाकर जमीन पर समान रूप चलने के लिए लम्बवत रूप से गिरती है।

### विनिर्देश :-

उपयुक्त	:	गेंहूं और धान
समग्र विन्यास (लं x चौ x ऊँ) (मि.मी.)	:	2380X 990 X 560
वजन कि.ग्रा. (मि.मी.)	:	180
कार्यकारी चौडाई (मि.मी.)	:	2200
क्षमता (हैक्टेयर / घंटा)	:	0.3— 0.4
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	25 / 17.5 ट्रैक्टर

### उपयोग :-

धान व गेहूं की कटाई के लिए उपयुक्त है।

लागत :- रु. 50,000/-

Created with



**nitroPDF®**  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

### 8.3 स्वचलित रीपर



#### विशेषताएः—

यह स्वचलित मशीन है जिसमें चालक मशीन के ऊपर बैठता है। इसमें लगे दो बड़े न्यूमेटीक छील से इसको आगे बढ़ाने की गति मिलती है और इसका स्टीयरिंग एक तरफ लगा रहता है इसमें 6 अ. श / 4.5 कि. वा. का इंजन लगा होता है। सुविधाजनक क्लच ब्रेक, स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक पद्धति और सरल शक्ति स्थानान्तरण प्रणाली आदि को आसानी से चलाने हेतु लगाया गया है। इसमें फसल पैकित विभाजक, तारेनुमा छील, कटरबार (76.2 मि.मी.) कन्चेयर वेल्ट व सिप्रिंग तार आदि लगे होते हैं। इस रीपर में दो आगे व एक पीछे चलने की गति होती है।

#### विनिर्देश :—

लम्बाई (मि.मी.)	:	3185
चौड़ाई (मि.मी.)	:	1900
ऊचाई (मि.मी.)	:	1450
वजन (कि.ग्रा.)	:	1530
प्रचालन गति (कि.मी./घंटा)	:	3.0—3.5
फिल्ड क्षमता (हैक्टेयर/घं.)	:	0.25—0.30
ईधन खपत	:	
फिल्ड दक्षता	:	60—70
श्रमिकों की आवश्यकता (व्यक्ति/दिन)	:	01
शक्ति की आवश्यकता	:	6 / 4.5

#### उपयोगः—

इसका इस्तेमाल धान, गेंहू सोयाबीन व तिलहन और दूसरी अनाज फसल को काटने के उपयुक्त है।

लागत :—रु. 1,20,000/-

Created with

#### 8.4 स्वचलित कम्बाईन हार्वेस्टर



##### विशेषताएः :-

विभिन्न प्रकार कम्बाईन हार्वेस्टर मशीने जिनमें 2–6 मीटर लम्बी (दांतेदार फसल काटने की पट्टी) कटरबार लगी होती है, बाजार में उपलब्ध है। इस मशीन का कार्य फसल को काटकर गहाई करना, पंखा करना, बीज व दाने की सफाई करना है। यह शीर्ष इकाई, गहाई इकाई, अलग—अलग करने की इकाई, सफाई की इकाई तथा दाने संग्रहण करने की इकाई से मिलकर बनी है। इसकी शीर्ष इकाई का कार्य फसल को काट कर संग्रहण करके बेलना कार गहाई इकाई में भेजना है चरखी फसल को प्लेट फार्म पर लगे दॉतेदार पट्टी की तरफ धकेलती है जबकि दॉतेदार पट्टी फसल को कटती है। बेलनाकार गहाई युनिट और अवतल सतह के मध्य दबाव एवं रगड़न की किया से फसल की गहाई होती है। गहाई की हुई फसल की मात्रा को स्ट्रारेक (भूसे की पनाली) में हिलती व उछलती है। जिससे दाने आगे जाकर पनाली में खूली जगह से सफाई की नाल पर गिरती है। जबकि भूसा पीछे की ओर निकल कर गिरता है। इसकी सफाई की प्रणाली दो छलनी ओर एक पंखे से मिलकर बनी होती है। इकाई में लगे वाहक दानों को ले जाकर अनाज की टंकी में संग्रहण करते हैं।

##### विनिर्देश :-

उपयुक्त	:	गेहूँ और धान
समग्र डायमेन्शन (मि.मी.) (लं. x चौ. x ऊँ)	:	8160X 4650 X 3820
कार्यकारी चौड़ाई (मि.मी.)	:	4313
क्षमता (हैक्टेयर / घंटा)	:	0.8–1.01 (गेहूँ) व 0.6 (धान)
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	105 / 78.75 इंजन

##### उपयोग :-

गेहूँ व धान फसलों की कटाई, गहाई और लदान के लिए लाभदायक है।

लागत:- रु. 14,00,000/-

## 8.5 स्वचालित रीपर बाईंडर



### विशेषताएँ:-

यह फ्रेम, दांतेदार पट्टी (कटरबार), क्लच एवं ब्रेक युक्त हैंडल, चालक हेतु सीट, दो पहिए, स्टीयरिंग के लिए चालक की गद्दी के नीचे से लगा पहिया, फसल एकत्रित करने वाली इकाई बाधने वाली इकाई और सुतली के बण्डल से मिल कर बना होता है। इस प्रकार के रीपर में लगी काटने की इकाई दांतेदार पट्टी या चक्र प्रकार की भी होती है। फसल कटने के बाद खड़ी अवस्था में आगे की ओर बाधने की प्रणाली की ओर बढ़ती है जहाँ सुतली से बंधकर बण्डल के रूप में जमीन पर गिरती है। पैदल चालक द्वारा स्वचालित प्रकार के मॉडल भी उपलब्ध हैं परन्तु उसकी रस्सी अधिक कीमत होने के कारण प्रचलित नहीं हैं। रीपर बाईंडर धान एवं गेहूँ की फसल के उपयुक्त हैं।

### विनिर्देश :-

समग्र विन्यास (मि.मी.)	:	3600X 1850 X 1200
कटाई चौडाई (मि.मी.)	:	1220
कटाई ऊचाई (मि.मी.)	:	50-70
रस्सी की आवश्यकता	:	1 बंडल / एकड़
ईधन की खपत (लीटर / घंटा)	:	1
कार्यकारी क्षमता (हैक्टेयर / घंटा)	:	0.4
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	10.2 / 7.5 एयर कूल्ड डीजल इंजन

### उपयोग :-

गेहूँ व धान की फसलों की कटाई और बंडल बनाने हेतु।

लागत : रु. 250000/-

## 8.6 पुआल गांठ बनाने वाली मशीन (बेलर)



### विशेषताएः :-

ट्रैक्टर की पी. टी. ओ. शक्ति चलित यह मशीन फिरकी प्रकार की पुआल संग्रहीत करने वाली असेम्बली (रील) और पुआल को ठोस कर बॉधने वाली युनिट से मिल कर बनी होती है। यह मशीन रील की मदद से खेत में गिरे पुआल / घास को उठाकर फीडर के द्वारा गॉठ बनाने वाले चेम्बर में भेजती है वहाँ आगे पीछे चलने वाले रेम से में दबती है। डॉसी गॉठ मशीन द्वारा स्वतः नॉयलान या तार से बॉधी जाती है।

### विनिर्देश :-

लम्बाई (मि.मी.)	:	5550
चौडाई (मि.मी.)	:	2600
ऊँचाई (मि.मी.)	:	1950
पिकअप रील की चौडाई (मि.मी.)	:	1540
गॉठ लगाने वाली ईकाई	:	2
गॉठ चेम्बर का साइज (मि.मी.)	:	400 x 460
रस्सी पेटी की क्षमता	:	चार बंडल
स्ट्रोक प्रति मिनिट	:	2000 इंजन आर. पी. एम. पर 75
स्ट्रोक की लंबाई (मि.मी.)	:	764
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	50 / 36 ट्रैक्टर

### उपयोग :-

उक्त गांठ बॉधने की मशीन का इस्तेमाल पुआल की आयताकार आकार की गांठे बनाने में उपयोग किया जाता है।

लागत:- रु. 8,00,000/-

Created with

## 8.7 स्ट्रा रीपर / स्ट्रा कम्बाईन



### विशेषताएः :-

स्ट्रा (भूसा) कम्बाईन ट्रैक्टर से खींचकर उसकी पी.टी.ओ. शक्ति से चलाई जाती है, इसमें रील, दॉतेदार पट्टी (कटरबार) फीड ऑगर, थ्रेसिंग सिलिंडर जो प्रचलित थ्रेशर में लगे होते हैं से मिलकर बनी होती है। कम्बाईन द्वारा अनाज काटने पर गिरा हुआ भूसा और बचे हुए खूटों को यह स्ट्रा कम्बाईन संग्रहण कर बेलनाकार अवतल भाग (सिलेण्डर कनवेयर) में पहुँचाता है जहाँ यह टुकड़ों में कटकर अवतल से गुजरती है। आगे पीछे चलने वाली दॉते युक्त पट्टी (कटरबार) खड़े डंठलों तथा पड़े हुए भूसे का संग्रहण करती है। भूसा जो अवतल से गुजरता है वहाँ चुषक पंखे द्वारा खींचकर पीछे की ओर लगी ट्राली जो तार के जाल से ढकी होती है में गिरता हैं। भूसे से बचे दानों को एकत्रित करने के लिए अवतल के नीचे छलनी प्रणाली लगी होती है।

### विनिर्देश :-

उपयुक्तता	:	गेहूँ
समग्र डायमेशन (ल. x चौ. x ऊ.) (मि.मी.)	:	4680X 1600 X 1970
कटर वार की चौड़ाई (मि.मी.)	:	2000
थ्रेशर सिलण्डर	:	कटर ब्लेड आधारित सिलण्डर
क्षमता (हैक्टेयर / घंटा)	:	0.5
स्ट्रा (भूसा) प्राप्ति (रिकवरी)%	:	55–60
अनाज प्राप्ति (कि.ग्रा./ घंटा)	:	30
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	35 / 26.25, ट्रैक्टर

### उपयोग :-

स्वचालित कम्बाईन से कटी फसल के भूसे और दाना एकत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।

लागत:- `1,00,000/-

## 8.8 श्रृंख मास्टर



### विशेषताएः :-

यह कटिंग ब्लेड जो धूमने वाली शाफ्ट पर आधारित होती है शक्ति स्थानान्तरण हेतु गियर बाक्स, यूनिवर्सल ज्वांइट, टेलीस्कपिक शाफ्ट के साथ जिससे ट्रैक्टर की पी.टी.ओ. एवं गियर बाक्स जुड़ते हैं, धास या झड़ी को काटने की ऊर्चाई को नियन्त्रित करने वाली दोनों ओर लगी फिसलन पट्टी सुरक्षा गार्ड और खीचने वाले फ्रेम से बना होता है। इसे ट्रैक्टर की पी.टी.ओ. से चलाया जाता है। इसकी पट्टी में दोनों तरफ ब्लेड लगे होते हैं तथा गियर बाक्स पर आधारित होती है। गियर बाक्स खड़ी धूरी को धुमाती है जिसके समान्तर धूमने पर 2 सेन्टीमीटर फोर्स के द्वारा पट्टी पर लगे ब्लेड खुलते हैं। इसमें काटने की प्रक्रिया पर पूर्णतय टकराने पर आधारित है तथा (ब्लेड) की तेज धार होना जरूरी नहीं है। इसके ब्लेड मध्यम –कार्बन–स्टील अथवा अलॉय के बने व सख्त होते हैं।

### विनिर्देश :-

समग्र डायमेशन मिमी (ल.xचौ x ऊ)	:	2000 X 1660 X 1000
ब्लेडों की संख्या	:	2
कटाव की चौड़ाई (मि.मी.)	:	1600
कुल वजन (कि.ग्रा.)	:	350
शक्ति चलित	:	पी.टी.ओ. प्रचालित
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	25 / 17.5, ट्रैक्टर

### उपयोग :-

इसका उपयोग सामान्यतः मैदान की धास और हैली पैड, खेत, वर्षा उपरान्त उगी वनस्पति एवं झाड़ियों को साफ करने में किया जाता है।

लागत :- ₹. 40,000/-

Created with

9. गहाई के यंत्र
- 9.1 बहु फसलीय गहाई यंत्र
- 9.2 अक्षीय प्रवाह धान गहाई यंत्र

Created with

52



## 9.1 बहु फसलीय गहाई यंत्र (मल्टीकॉप थ्रेशर)



### विशेषताएः—

बहु फसलीय गहाई यंत्र, (थ्रेशर), फेम, कटाई करने वाला सिलिंडर (बेलन) सिलिंडर का खोल, अवतल दोलायमान छलनी, घिरनी, पट्टे, चार पहिए, चूषक धोकनी, पंखा तथा सफाई प्रणाली से मिलकर बना होता है। कुटाई बेलन में खूटीनुमा दांत गोलाकार कास्ट आयरन में लगे होते हैं मुख्य धूरी जिस पर कुटाई बेलन लगे होते हैं, उसके दोनों सिरे बजनी पेडल बियरिंग पर अधारित होते हैं विभिन्न प्रकार की कई घिरनियां इनकी धूरी पर लगी होती हैं जिससे फटकनी और पंखे की प्रणाली को शक्ति स्थानांतरण होती है। बेलन, धोकनी की गति एवं अवतल में निकासी को विभिन्न फसल को सुचारू गहाई हेतु समायोजन की व्यवस्था है। धान, सोयाबीन, मक्का, ज्वार इत्यादि की फसलों की गहाई करते समय अन्दर की ओर अक्षीय प्रवाह से दबाव एवं खंडन की प्रक्रिया से कूटकर दाना और भूसा अलग हो जाते हैं जबकि गेहूं की फसल अक्षीय प्रवाह से अवरोधित होती है इसकी कुटाई बेलन एवं अवतल के मध्य दबाब खंडन की प्रक्रिया से भूसा बारिक हो जाता है तथादाना अवतल के नीचे लगी छलनी से साफ होकर बैग में एकत्रित हो जाता है।

### विनिर्देश :—

उपयुक्त	:	गेहूं धान, ज्वार, चना, मक्का, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरहर आदि।
समग्र डायमेंशन (मि.मी.)	:	1950 x 1650 x 1450
वजन (कि.ग्रा.)	:	460
क्षमता (कि. ग्रा. / हैक्टेयर)	:	1000 से 1600
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	5 / 3.75 विद्युत मोटर या 7.5 / 5.265 डीजल

### उपयोगः—

इसका इस्तेमाल गेहूं धान, ज्वार, चना, मक्का, सोयाबीन, अरहर, सूर्यमुखी की गहाई के लिए किया जाता है।

लागत : रु. 1,00,000 /—

Created with

## 9.2 अक्षीय प्रवाह धान गहाई यंत्र



### विशेषताएँ:-

यह कुटाई बेलन (थ्रेसिंग सिलेण्डर), अवतल, बेलन का आवरण, सफाई प्रणाली और भराई प्रणाली से मिलकर बना होता है। अक्षीय प्रवाह से गुजरने वाली संरचना में फसल की प्रणाली को सिरे से भरते हैं, जिसमें अक्षीय वृत्ति गति से पूर्ण कुटाई होकर भुसा बाहर फिकता है। कुटाई के दौरान फसल उस बेलन के चारों तरफ  $3\frac{1}{2}$  चक्कर लगाने के फसलस्वरूप दाने अलग हो जाते हैं। कुटाई बेलन खुँटी युक्त होता है थ्रेशर के आवरण में सात झिलझिली (लूवर्स) लगी होती हैं। जिनसे फसल अक्षीय गति लेती है इसमें चूषक धोकनी (ब्लोअर) तथा दो छलनी सफाई हेतु लगी होती हैं।

### विनिर्देश :-

लम्बाई (मि.मी.)	:	2030
चौड़ाई (मि.मी.)	:	3050
ऊँचाई (मि.मी.)	:	1960
फीडिंग (पोषक) ईकाई	:	फीडिंग शूट
सिलेण्डर का प्रकार (बेलन)	:	स्पाइक टूथ (खूँटीदार)
सिलेण्डर का साइज (व्यासxलम्बाई) (मि.मी.)	:	770 x 1500
कनकेव (अवतल)की लंबाई (मि.मी.)	:	840
कनकेव क्लीयरेंस (मि.मी.)	:	18 –21
ब्लोअर (धोकनी)	:	चूषक टाईप, दो ब्लोअर (400मि.मी. व्यासx 160मि.मी चौड़ाई )
वजन (कि.ग्रा.)	:	730
शक्ति की आवश्यकता (अश्वशक्ति / किलोवाट)	:	35 / 26.25 ट्रैक्टर

### उपयोग :-

धान की गहाई करने हेतु ।

लागत : रुपये 80,000/-

Created with

## 10 छत्तीसगढ़ राज्यों के मशीनरी निर्माताओं की पता सूची

क्रमांक	निर्माताओं के नाम व पता
1	अग्रसेन इंजी. वर्क्स, बस स्टेण्ड रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
2	अजय इंजी. वर्क्स शंकर नगर रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
3	अमर इंजी. सर्विस देवेन्द्र नगर रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
4	अनोज एग्रीकल्चर वर्क्स, न्यू मार्केट, राजेन्द्र गांव, पिन – 491441 छत्तीसगढ़
5	अरुण एग्रीकल्चर देऊपुरी रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
6	अरुण इंजी. वर्क्स बस स्टेण्ड खरासीय पिन – 496661 छत्तीसगढ़
7	अरुण इंजी. वर्क्स बस स्टेण्ड राजनंदगांव पिन – 491441 छत्तीसगढ़
8	अरुण ट्रेड कम्बाईन देऊपुरी राजपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
9	अतुल प्रजापति इंजी. वर्क्स बस स्टेण्ड धम्तरी पिन – 493773 छत्तीसगढ़
10	बिमल इन्डस्ट्रीज चंगेराभता रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
11	कोस्मो प्रोडक्ट, अशोका कॉम्प्लेक्स पंचपेडी नाका, धम्तरी रोड रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
12	कोस्मो प्रोडक्ट, देऊपुरी ओप. जाम पब्लिक स्कूल, धम्तरी रोड रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
13	डिपाटमेंट ऑफ एग्री. इंजी. छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
14	फार्म इंजी. तेलीबंध, रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
15	गोमती इन्डस्ट्रीज शंकर नगर रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
16	आई जे. के. व्ही. रायपुर पिन – 492006 छत्तीसगढ़
17	जयसवाल इन्डस्ट्रीज बस स्टेण्ड बिलासपुर पिन – 495001 छत्तीसगढ़
18	ज्योति इन्डस्ट्रीज, न्यू बस स्टेण्ड रायपुर पिन – 492002 छत्तीसगढ़
19	ज्योति इन्डस्ट्रीज, पण्डरी रायपुर पिन – 492002 छत्तीसगढ़
20	केशरवानी इन्डस्ट्रीज, बस स्टेण्ड बिलासपुर पिन – 495001 छत्तीसगढ़

Created with



21	किशन इंजी. वर्कस रामगंग राजनंदगांव पिन – 491441 छत्तीसगढ़
22	किशन इंजी. वर्कस स्टेशन रोड खरासीय पिन – 496661 छत्तीसगढ़
23	लुथरा एग्री. काप. बस स्टेप्ड रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
24	नेशनल इंजी कंपनी बस स्टेप्ड राजनंदगांव पिन – 491441 छत्तीसगढ़
25	नेशनल इंजी. वर्कस बस स्टेप्ड धमतरी पिन – 493773 छत्तीसगढ़
26	नीरज इन्डस्ट्रीज, न्यू राजनंदगांव रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
27	नीरज इंजी. वर्कस रामभटा रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
28	निर्मल इन्डस्ट्रीज चंगेराभता, रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
29	ओकसु इंजी. रामभटा, बिलासपुर रोड रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
30	पटेल इंजी. वर्कस, न्यू मार्केट राजनंदगांव पिन – 491441 छत्तीसगढ़
31	पूजा द्राली वर्कस, बस स्टेप्ड जगदलपुर बस्तर पिन – 494005 छत्तीसगढ़
32	राहुल एग्रीकल्चर कार. रामगंज धमतरी पिन – 493773 छत्तीसगढ़
33	राहुल इन्डस्ट्रीज, शोभानगर, बिलासपुर पिन – 495007 छत्तीसगढ़
34	ऋषि इंजी. बस स्टेप्ड रायगढ़ पिन 496001 छत्तीसगढ़
35	साहू इन्डस्ट्रीज, संतोषी नगर रायपुर पिन – 492001 छत्तीसगढ़
36	शर्मा इन्डस्ट्रीज, बस स्टेप्ड बिलासपुर पिन – 495001 छत्तीसगढ़
37	वन्दना इंजी. स्टेशन रोड, रायगढ़ पिन– 496001 छत्तीसगढ़
38	विकास एग्रो कम्पनी रामगंज धमतरी पिन – 493773 छत्तीसगढ़

## 11. कृषि मशीनरीकरण के विस्तार हेतु भारत सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम

### कृषि मशीनरीकरण में मानव संसाधन का विकास

मानव संसाधनों का विकास और स्वरोजगार पैदा करने के लिए कौशलोन्मुखी प्रशिक्षण का कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान सन् 1955 में बुद्धी (म.प्र.), 1961 में हिसार (हरियाणा), 1983 में अन्नतपुर (आंध्र प्रदेश) और 1990 में विश्वनाथ चरियाली (आसाम) में स्थापित किये गये तब से ये संस्थान कृषि मशीनरी के लिए मानव संसाधनों का विकास में संलग्न हैं। इन कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान द्वारा कृषि मशीनरी के चयन, प्रचालन, मरम्मत / रखरखाव और प्रबंधन पर केन्द्र/राज्य सरकार, निजी संगठन द्वारा नामित कर्मचारी, सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मी, तकनीशियन, ग्रामीण युवा, कृषक और इंजीनियरिंग विद्यार्थीयों के फायदेमंद पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। उपयोगकर्ता स्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थी को रूपये 1200/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं आने – जाने का साधारण श्रेणी किराया वास्तविक दर पर दिया जाता है।

कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रयासों को सहयोग के उद्देश्य से राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भा.कृ.अ.प. के संस्थान पॉलिटेक्निक आदि द्वारा कृषि यंत्रों एवं मशीनों पर किसानों को उनके नजदीक स्थान पर तकनीकी जानकारी की बढ़ोत्तरी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। चयनित किये गये संस्थान को वित्तीय सहायता स्वरूप रूपये 5200/- कृषक प्रतिमाह दिया जाता है। जिसमें रूपये 1200/- प्रति कृषक प्रतिमाह प्रशिक्षण छात्रवृत्ति एवं आने – जाने का वास्तविक साधारण श्रेणी किराया अधिकतम रूपये 300/- प्रति कृषक, रूपये 1200/- प्रति कृषक प्रतिमाह बॉर्डिंग एवं लॉजिंग चार्ज और संस्थागत खर्च (स्टेशनरी, प्रशिक्षण सामग्री, मानदेय आदि सहित) रूपये 2500/- कृषक प्रतिमाह सम्मिलित हैं।

### **ब. कृषि उपकरणों एवं मशीनों का गुणवत्ता नियंत्रण**

फसल उत्पादकता बढ़ाने और कृषि विकास के लिए उन्नत एवं गुणवत्ता युक्त कृषि उपकरणों एवं मशीनों की मुख्य भूमिका है इसलिए आवश्यकता आधारित एवं गुणवत्ता युक्त कृषि मशीनरी / उपकरण की पहचान अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्माताओं के नये प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का आंकलन करने में गुणवत्ता भी एक मुख्य भाग है। कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कृषि उपकरणों एवं मशीनों के क्रय हेतु वित्तीय सहायता के लिए वित्तीय संस्थानों, प्रचार-प्रसार कर्मीयों किसानों के मार्गदर्शन हेतु डाटा और सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न मशीनों का तुलनात्मक आंकड़े संकलित करने के लिए परीक्षण करते हैं। संस्थान निर्माताओं को उत्पाद विकास में मदद हेतु बीआईएस प्रमाणन तथा निर्यात बढ़ोत्तरी हेतु आईएसओ/ओईसीडी संबंधित परीक्षण करते हैं ताकि किसानों को उन्नत उपकरण उपलब्ध कराया जा सके।

बुद्धी संस्थान देश में ओईसीडी मानकों के आधार पर ट्रैक्टर परीक्षण करने के लिए केवल मात्र प्राधिकृत है। बुद्धी एवं हिसार संस्थान केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्वचलित मशीनों के वैधानिक प्रमाणन के लिए भी अधिकृत है। बुद्धी संस्थान में इंजिन एक्जास्ट गैस इमीशन परीक्षण भी प्रारंभ हो चुका है।

राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सहायता प्राप्त कार्यक्रम एवं योजनाओं जिनमें किसानों को गुणवत्ता युक्त कृषि उपकरण एवं मशीनें उपलब्ध कराई जाती है, को सलाह प्रदान करते हैं। परीक्षण की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुये कुछ उपकरणों का परीक्षण भी विकेन्द्रीकरण कर दिया है। जहां राज्य सरकार यदि आवश्यकता हो तो कृषि विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय आई सी ए आर संस्थान, के.व्ही.के. या अन्य रिसर्च संस्थान द्वारा परीक्षण करा सकती है। इन संस्थानों द्वारा परीक्षित रिपोर्ट राज्य सरकारों से अनभुत होगी।

### **नवीन कृषि मशीनों का प्रचार**

फसल उत्पादन के लिए तकनीकी को ग्रहण करने के लिए किसानों को सही ढंग से उसकी उपयोगिता का प्रदर्शन करना आवश्यक है इसलिए नयी / उन्नत तकनीक को कृषि उत्पादन ने बढ़ावा देने

के लिए किसानों के खेतों में प्रक्षेत्र प्रदर्शन हेतु 100 प्रतिशत अंशदान सहायता विभिन्न संस्था जैसे राज्य सरकार / केन्द्रीय शासित, शासकीय संस्थान जैसे आईसीएआर और राज्य फार्म निगम द्वारा दी जाती है।

### कृषि मशीनों / उपकरणों के क्रय पर प्रोत्साहन

कृषि एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे मेकोमेनेजमेण्ट आफ एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन आदि द्वारा विभिन्न कृषि उपकरण एवं मशीनों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सभी वर्ग के किसानों को कृषि उपकरण एवं मशीनों के मूल्य का 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक राज्य सहायता दी जा रही है।

### कृषि मशीनों के कस्टम हायरिंग सेन्टरों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन

कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने, समय पर कृषि कार्य सम्पन्न करने हेतु, बेरोजगार ग्रामीण नवयुवकों को रोजगार तथा जरूरत मंद कृषकों को लागत पूर्ति एवं सेवायें उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त मशीनीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि मशीनरी बैंक स्थापित किये जा रहे हैं जिसमें राजीव गांधी कृषि विकास योजना एवं मेको मेनेजमेण्ट योजना के अंतर्गत मंहगे कृषि उपकरण भी राज सहायता द्वारा प्रोत्साहित किये जा रहे हैं।

### कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन

कटाई उपरांत प्रबंधन के बढ़ावे हेतु इस तकनीक को प्रोडेक्शन केचमेन्ट में आईसीएआर एवं स्वसहायता समूह (एस.जी.एच) / किसान युजर ग्रुप / कोअपरेटिव सोसाइटी / एनजीओ के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत 40 प्रतिशत सहायता सरकार से तथा बाकी 60 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा देना होता है।

सस्ते कटाई उपरांत तकनीकी केन्द्र की स्थापना में सरकार द्वारा सहायता स्वरूप प्रोजेक्ट की लागत का 40 प्रतिशत तथा उन तकनीकी निवेष जो रूपये 2,00,000/- तक प्रारंभिक प्रोजेक्ट लागत रखते हो, में प्रत्येक किसान को सहायता उपलब्ध है।

फसल अथवा क्षेत्र विशेष कटाई उपरांत तकनीक के प्रदर्शन राज्य सरकार, एआईसीआरपी प्रोजेक्ट, के.व्ही.के., सीएसआईआर प्रसार केन्द्र राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये हैं। सरकार इन प्रदर्शनों में 100 प्रतिशत अंशदान उपकरण क्रय तथा स्थापना व अन्य खर्चों के लिए प्रदान करती है। कटाई उपरांत प्रबंधन से जुड़े वैज्ञानिकों, उद्यमी एवं किसानों के प्रशिक्षण हेतु चिन्हित किये गये संस्थानों को रूपये 2600/- प्रति कृषक प्रति सप्ताह एवं रूपये 3000/- प्रति उद्यमी / वैज्ञानिक प्रति सप्ताह वित्तीय सहायता भी देय है।

Created with



**nitroPDF professional**  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

## 12. कृषि मशीनरीकरण पर स्वीकृत अधिकतम सहायता का स्वरूप

क्र.	मशीन / उपकरणों के नाम	सहायता का स्वरूप
1.	ट्रैक्टर	40 हार्स पावर तक ट्रैक्टर के मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 45,000/-
2.	पावर टिलर	अ) 08 बीएचपी एवं उससे अधिक पावर टिलर के मूल्य का 40 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 45,000/- ब) 08 बीएचपी से कम हल्के पावर टिलर के मूल्य का 40 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 25,000/-
3.	स्वचलित रीपर, पैडी ट्रांसप्लान्टर तथा अन्य उसी प्रकार की स्वचलित मशीनें	मशीन के मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 40,000/-
4.	स्पेशल शक्तिचलित उपकरण	अ) मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 15,000/- स्पेशल पावर चलित उपकरण जैसे पोटेटो प्लान्टर, पोटेटो डिगर, ग्राउंडनट डिगर, स्ट्रीप टिल ड्रिल, ट्रैक्टर चलित रीपर, क्लीनर कम ग्रेडर, ड्रायर, स्टेवल शेवर, मोबाइल फूट हार्वेस्टर, पावर वीडर, मिनी राइस मिल, कल्टीपॅकर, ओनीयन हार्वेस्टर विथ डी टोपिंग अटेचमेंट, केरोट हार्वेस्टर, मोटराइज़ेड बनाना फाइवर मेकिंग मशीन। ब) मूल्य का 40 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 20,000/- जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइज़ेर ड्रिल, रेज़ड बेड प्लान्टर, सुगर केन कटर प्लान्टर रिंग पिट डिगर/पोस्ट होल डिगर, रोटावेटर, रीपर/ बाइन्डर, हैपी सीडर, वेजीटेबल ट्रान्सप्लान्टर / न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर। एनबी:- इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा प्रस्तावित उचित उपकरण भी कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा मान्य होंगे।
5.	मानवचलित उपकरण/ औजार	मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 20,000/-
6.	पशुचलित उपकरण	मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 25,000/-
7.	पशुचलित टूल केरियर	मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 6,000/- पशुचलित विशेष उपकरण जैसे अ.) मल्टी टूलवार/ केरियर/ ट्रोफीकल्टर(कम से कम 4 अटेचमेन्ट सहित) ब.) प्रीजर्मीनेटेट पैडी सीडर
8.	पावर चलित उपकरण (ट्रैक्टर / पावर टिलर चलित)	अ.) मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 10,000/- विशेष ट्रैक्टर चलित उपकरण जैसे एमबी/डिस्क प्लाऊ, हैरो, कल्टीवेटर, सीड कम फर्टीलाइज़ेर ड्रिल ब.) मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 10,000/- पावर चलित उपकरण का सेट (जोडी) जैसे हैरो, कल्टीवेटर एवं सीड ड्रिल
9.	पावर थ्रेशर (सभी प्रकार)	मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 12,000/-
10.	डीजल / इलेक्ट्रिक पंप सेट	मूल्य का 50 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 10,000/- , 7.5 बीएचपी / 5 कि.वा. डीजल / इलेक्ट्रिक पंप सेट।
11.	कोनो वीडर	मूल्य का 50 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 3,000/- प्रति कृषक जो भी कम हो।
12.	पौध संरक्षण उपकरण अ.) मेन्युअल ब.) पावर आपरेटेड स.) ट्रैक्टर माउन्टेड	मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 800/- मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 2,000/- मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 4,000/-

Created with



**nitroPDF**  
powered by nitropdf.com  
download the free trial online at nitropdf.com/professional

	द.) एरो-ब्लास्ट स्प्रेयर	मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रुपये 25,000/-
13.	कम्बाईन हार्वेस्टर उपरोक्त मुख्य कृषि उपकरण के अतिरिक्त कृषक समूह, पंजीकृत सहकारी समिति, कृषि साख समिति, बहुउद्देशीय कृषि समिति, स्वसहायता समूह, जबकि इस तरह के कोई भी समूह एनजीओ के भाग न हो, को वित्तीय सहायता स्वरूप कम्बाईन हार्वेस्टर देय होंगे। कम्बाईन हार्वेस्टर कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा स्वीकृत होना चाहिए।	मूल्य का 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रुपये 1,50,000/- जो भी कम हो। (यह ध्यान में रखकर कि किसानों द्वारा उपयोग किये जा रहे कम्बाईन हार्वेस्टर जिनकी कटर वार चौड़ाई 12 से 14 फिट तथा मूल्य सीमा रुपये 7 लाख से रुपये 9 लाख प्रति इकाई हैं)

नोट :- कृषि मशीनों एवं उपकरणों के समक्ष दर्शाये गये मूल्य क्षेत्र एवं समय के अनुसार परिवर्ती है। सबसिडी या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता वर्षानुसार एवं राज्य अनुसार जहां राज्य भी कुछ चिन्हित उपकरणों पर वित्तीय सहायता देते हैं, परिवर्ती है।